Capital Small Finance Bank

த்சுர்க் / Sr	· Nc	,						ग्राहक पहचान नंबर 1 Cust id 1				
	.140							ग्राहक पहचान नंबर 2 Cust id 2				
खाता संख्या A/c no.								ग्राहक पहचान नंबर 3 Cust id 3				

स्थानीय व्यक्तिगत खाता खोलने का फार्म (बचत/अवधि जमा/व्यक्तिगत चालू खाता) RESIDENT INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING FORM (Saving/Term Deposit/Individual Current)

- 1. कोई एक ओवीडी तथा Any one OVD and
- 2. पैन कार्ड या फार्म—**60** PAN Card OR Form 60

ज़रुरी दस्तावेज़ Documents Required

Officially Valid Documents आधिकारिक मान्य दस्तावेज़

- 1. पासपोर्ट Passport
- 2. वोटर पहचान कार्ड Voter's Identity Card
- 3. ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence
- 4. NREGA द्वारा जारी सर्विस कार्ड Job Card issued by NREGA
- 5. UIDAI द्वारा जारी पत्र/आधार कार्ड Letter issued by UIDAI/Aadhar Card
- NPR द्वारा जारी राष्ट्रीय जनगणना पंजीकृत पत्र Letter issued by NPR (National Population Register)

(ग्राहक की जोखिम स्थिति के अनुरूप बैंक अतिरिक्त जानकारी दस्तावेज लेने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत है।) (Bank reserves the right for calling additional information/document depending upon the risk categorisation of the customer.)

उचित ओ वी डीज़ (सीमित उद्देश्य के लिए) Deemed to be OVD's (Limited Purpose)

कृप्या अपने वर्तमान पते के OVD's खाता खुलने के तीन महीने के भीतर जमां कराएं। Please submit OVD with current address with in 3 month of account opening

- उपयोगी बिल बिजली, टेलीफोन, मोबाइल (पोस्टपेड)
 Utility bills-Electricity, telephone, postpaid mobile
- संपति / म्युनिसिपल टैक्स रसीद
 Property/Municipal Tax Receipt
- सेवा निवृत कर्मियों का (सरकार/सार्वजनिक विभाग द्वारा जारी) व्यक्तिगत/पारिवारिक पेंशन देय आदेश पत्र
 Pension or family pension payment orders issued to retired
 employees (Govt Dept/PSU.)
- नियोक्ता से आवास के आवेदन का पत्र (पोलिसी में बताए अनुसार)
 Letter of allotment of accommodation employer (as stated in policy)

(Bank reserves the right for calling additional information/document depending upon the risk categorisation of the customer. वरिष्ठ नागरिक के लिए खाता Senior Citizen's Account

उपरोकत दस्तावेज में आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, निम्न में से किसी एक दस्तावेज की आवश्यक्ता होगी। In case age proof is not available in any of the above documents then any one from the following documents is required.

- 1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र Birth Certificate
- 2. स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र School Leaving Certificate
- 3. जीवन बीमा पालिसी Life Insurance Policy
- 4. पैंशन कार्ड Pension Card

Page 1 to 8

खाता खोलने के लिए उपलब्ध दस्तावेज़ों का विवरण Particulars of Documents obtained for Account Opening

विवरण Particulars	प्रथम ID विवरण First ID Details	द्वितीय ID विवरण Second ID Details
आवेदक 1 1st Applicant	ID का नाम और प्रकार ID Name & Type ID का नम्बर तथा तिथि ID No.& Date जारी करने वाला प्राधिकरण Issuing Authority	ID का नाम और प्रकार ID Name & Type ID का नम्बर तथा तिथि ID No.& Date
आवेदक 2 2nd Applicant	ID का नाम और प्रकार ID Name & Type ID का नम्बर तथा तिथि ID No.& Date जारी करने वाला प्राधिकरण Issuing Authority	ID का नाम और प्रकार ID Name & Type ID का नम्बर तथा तिथि ID No.& Date
आवेदक 3 3rd Applicant	ID का नाम और प्रकार ID Name & Type ID का नम्बर तथा तिथि ID No.& Date जारी करने वाला प्राधिकरण Issuing Authority	ID का नाम और प्रकार ID Name & Type ID का नम्बर तथा तिथि ID No.& Date

बैक उपयोग के लिये FOR BANK USE

Sourced By	Permitted to open Account KYC Compliance Officer	Back Office Inputter
Signature	Signature	Signature
Emp.Name	Emp.Name	Emp.Name
E.Code	E.Code	E.Code
I hereby declare that I have personally met the customer at his/her communication address (In case communication/mailing address is different from permanent address	s) Branch Head	Authorizer
I hereby declare that I have personally met the customer at his/her communication address (In case communication/mailing address is different from permanent address Signature	Signature	Authorizer Signature
	Signature	Signature

Capital Small Finance Bank 🔣

शाखा प्रबंधक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कृप्या मेरा/हमारा/संयुक्त खाता खोलें		तिथि / Date D D M M Y Y Y Y
The Branch Manager, Capital Small Finance Bank Ltd. Please open my/our /joint account at your		शाखा Branch
	खाता विकल्प ACCOUNT OPTION	S
बचत सामान्य बचत SAVING Saving Genera		कैपिटल सेवर बचत कैपिटल सुपर सेवर बचत Capital Saver Saving Capital Super Saver Savin _i
चालू (व्यकितगत) सामान्य चालू CURRENT(Individual) Current Gener		कैपिटल प्लस कैपिटल प्रीमियम Capital Plus Capital Premium
सावधि जमा FIXED DEPOSIT	Period (दिन / महीना / सा	ল)
(Request Form for opening of Term Deposit is mandatory (सावधि जमा खोलने के लिए अनुरोध प्रपत्र अनिवार्य है)	(Days/Months/ 1e	
ा सी डी पस टी डी CD STD	एम आई डी एस व्यू आई डी प MIDS QIDS	एस टैक्स सेवर आर डी Tax Saver RD
खाता-उप किस्म 🔲 सार्वजनिक ACCOUNT SUB-TYPE PUBLIC	वरिष्ठ नागरिक स्टाफ SENIOR CITIZEN STAFF	ा सैलरी अन्य SALARY Other
	निजी जानकारी PERSONAL DETAILS	
Applicant	रक के नाम Name of the Account hol	der(s) प्रथम निवेदक के साथ संबंध Relationship with First Applicant
1		
2		
3		
	संचालन कर तरीका MODE OF OPE	RATION
एकल Single या तो या उत्तरजीवी Either or Survivor	पूर्व या उत्तरजीवी Former or Survivor	अन्य या उत्तरजीवी सभी संयुक्तों द्वारा Anyone or Survivor Jointy by All
संरक्षक	स्वयं संचालित नाबालिग	अन्य
Guardian	Self Operated Minor	Others (कृपया लिखें) (Please Specify
	वितरणयोग्य DELIVERABLES	it Card
पास बुक Pass Book हाँ Yes	नहीं No डेबिट कार्ड Debi	it Card s per Account Category) हाँ Yes नहीं No
चैक बुक Cheque Book हाँ Yes	नहीं No	
	आरंभिक भुगतान INITIAL PAYMEN	IT
राशि (अंकों में)	शब्दों में	
Amount (in Figures) निकासी मेरे / हमारे खाता संख्या केश Cash Dobit my Your Account no	In words	चैक नंबर
तिथि निकाले ग		Cheque Number
Date Drawn	On Control Control	third party payment shall be accepted for initial deposit through any mode.
<u> </u>		unira party payment snail be accepted for initial deposit through any mode. ही है, तो यह मुझे केवल डीडी / चेक या पीओ के रूप में वापस की जाएगी।
		re, it will be refunded to me in the form of a DD/Cheque or PO only.)
	इ-बैकिग सेवाये E-BANKING SERV	TICES
कृप्या इच्छित पर (√) Please tick the desir) तथा अन इच्छित पर (✕) लगाओ। क ed (√) Cross the undesired (✕) Do	ोई भी बलॉक खाली न छोडें। not leave any field BLANK
मोबाइल पर सूचनाएं इंटरनेट हैं Mobile Alerts	ौंकिंग Internet Banking ई-स्टेटमेंट E-S	statement कैंपिटल ए टी एम / डेबिट कार्ड Capital ATM cum/ Debit Card
ई मेल आई डी (ई स्टेटमेंट)	ate form for i-Banking services-Retail)	
Email ID (e-statement) दैनिक Daily स	ाप्ताहिक Weekly पाक्षिक Fortnightly	मासिक Monthly त्रे मासिक छमाही Half yearl
*मोबाईल नम्बर	मोबाईल सेवा प्रदाता	Quarterly One call - Registration Yes N
*Mobile No.	── Mobile Service Provider └──	भूष्ट N
	·	and such alert as deemed appropriate by the bank will be sent even if you have not subscribed for the facili
 बिना किसी शुक्क के बैंक द्वारा डिफॉल्ट रूप से विनियामक और जोखिम अलर्ट मेजे जाएंगे 	Regulatory & Risk alerts will be sent by the bank by default without	ut any charges.
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान आवेदक – 1	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आवेदक –2	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
*Signature (s) / Thumb Impression	*Signature (s) / Thumb Impression	आवेदक —3 *Signature (s) / Thumb Impression
of 1st Applicant	of 2nd Applicant	of 3rd Applicant
	L	
अनुरोध दर्ज करने की तिथि Request Lodgemer	nt Date	
पल्स संदर्भ संख्या Pulse Unique Ref. No	द्वारा व	दर्ज Entered by के द्वारा सत्यापित Verified by

नाबालिग खाता वर्णन MINOR'S ACCOUNT DECLARATION														
अभिभावक / संरक्षक का नाम Name of Parent/Guardian	Y.													
नाबालिंग के साथ संबंघ माता पिता न्यायालय के आदेश से यदि हां तो कृप्या एक प्रति विषकाएं अन्य कृप्या निर्दिष्ट करें Relationship with Minor Mother Father (by court order if yes, please affix a copy) संरक्षक के अधीनः जब तक उसत नाबालिंग व्यस्क नहीं हो जाता. मैं खाते में किसी भी विवरन के मविष्य के सभी लेन देन में नाबालिंग का प्रतिनिधित्व करूँगा														
प्रतिक्षण कर्या निवास के तथा कि कि उसके खाते में मेरे द्वारा किए गए किसी भी निकासी। तेन/देन के लिए नाबासिन के जीना के किसी भी दावे के खिलाफ बैंक को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करूँगा। Under Guardian: I shall represent the minor in all future transactions of any description in the account till the said minor attains majority. I shall fully indemnify the bank against any														
claim of the minor for any withdrawal/transaction made by me in his/her account for the benefit of the minor only. स्वय संचातित नागातिक: में नागातिक हम नागितिक हम														
Self Operated minor: I shall fully indemnify the bank against any claim of the minor for any transaction including Digital transaction made by the minor in his/her account.														
बैंक में जमा राशि के संदर्भ में बैंकिंग कम्पनीज (नोमीनेशन) अधिनियम 1985 के नियम 2 (1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45 ZA के अधीन नामांकन														
Nomination under Section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits. मैं/हम	ا ر													
I/We	_													
मेरे/हमारे नाबालिंग की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, जमाकर्ता की जमाराशि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को वापस देने के लिए नामांकित करता हूँ/करते हैं nominate the following person to whom in the event of my / our minor's death the amount of the deposit may be returned by Capital Small Finance Bank Limited	_													
शाखा Branc														
नामांकित व्यक्ति Nominee जमाकर्ता के साथ संबंध (यदि कोई) नाम Relationship with	٦													
Name	=													
Address	╣													
City	-													
Pin code Land Date of birth (if nominee is minor) Land Land Community (हिंग तथि पर नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, मैं /हम नियुक्त करते हैं श्री /श्रीमति /क्मार	_													
*As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kumar	$\frac{1}{2}$													
मेलिंग पता Mailing address नामांकित के साथ संबंध	_													
Relationship with Nominee Age of Appointee (Years)														
To receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nomine	e													
*हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान आवेदक —1														
of 1st Applicant of 2nd Applicant of 3rd Applicant														
साक्षी*** Witness***														
 	\neg													
Name	_													
हस्ताक्षर Signature ***														
पता Address														
 - स्थान स्थान														
Place Place বিখি Date														
Date	1 1													
* Strike out if nominee is not a minor, ** Where the deposit is made in the name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act behalf of the minor.	on													
Benail of the filliot.														
Capital Small Finance Bank 📆														
ACKNOWLEDGEMENT - DA 1 Sr.No.														
We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of:														
Name of the NomineeAge:Years. with respect to Your A/c. No(s)														
Nomination Regd. No Date of Receipt form														
Signature of bank official with seal														
organization of the control of the c														

ग्राहक की सहमति और वर्णन CUSTOMER CONSENT & DECLARATION

- 1. कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इंटरनेंट बैंकिंग खुविया के उपयोग पर खाताधारक समय—समय पर वेबसाइट www.capitalbank.co.in पर निर्धारित नियमों और शर्तों से बाध्य होगा। खाताधारक का यह कर्तव्य है कि वह यूजर आईडी और पासवर्ड को खुरिसत रखें / The account holder on usage of the Capital Small Finance Bank Ltd. Internet Banking facility will be bound by the terms and conditions in force from time to time as set forth on the website www.capitalbank.co.in. It is the duty of the account holder to protect and keep the user Id and password protected, safe and secured.
- 2. कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इंटरलेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से दिए गए निर्देशों के आधार पर किसी भी प्रकार के लिंक किए गए खातों के डेबिट होने के लिए खाताधारक पूरी तरह से जिक्मेदार होगा। इन सेवाओं से जुड़ी फीस, शुन्क या अन्य शुन्क लागू होंगे। खोले जा सकने वाले किसी भी नए खाते सिंहत सभी लिंक किए गए खाते समय—समय पर लागू नियमों के अनुसार फंड ट्रांसफर सुविधा के तहत कचर किए जाएंगे The account holder shall be fully responsible for any kind of linked accounts getting debited based on the instructions given through the Capital Small Finance Bank Ltd. Internet Banking User ID and password.The fees, duties or other charges associated with these services will be as applicable. All the linked accounts (including any new accounts that maybe opened) will be covered under the fund transfer facility as per the rules in force from time to time.
- 3. कैंपिटल स्मॉन फाइनेंस बैंक लिगिटेड के खाताधारक उल्लिखित मोबाइल फोन नंबरों पर मोबाइल बैंविंग के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। मोबाइल बैंविंग के माध्यम से कोई अतिरिक्त विशेष सुविधा प्राप्त करने की रियति में खाताधारक निर्देशों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इन रोवाओं के संबंध में खाताधारक की ओर से मोबाइल सेवा प्रदाता की गलती के मामले में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और खाताधारक सहमत हैं कि बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा The account holders of Capital Small Finance Bank Ltd. are responsible for the registration of Mobile Banking at the Mobile Pumbers mentioned . In the event of availing any additional / specialized facility through Mobile Banking the account holder shall be fully responsible for the account being debited on instructions from the specified mobile numbers. The fees, duties or other charges associated with these services will be as applicable . In case of mistake on part of the account holder or that of mobile service provider in respect of these services, the bank will not be responsible and the account holders agree that no claim will be made against the Bank.
- 4. टेली बैंकिंग पिन टी पिन की सुरक्षा और उसे सुरक्षित रखने के लिए कैंपिटन स्मॉन फाइनेंस बैंक का खाताधारक जिम्मेदार है और बैंक द्वारा फोन बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी के विवरण की आवश्यकता हो सकती है। बैंक खाताधारक द्वारा प्रदान किए गए गोपनीय विवरण के रूप में कार्य करेगा,ऐसे मामलों में बैंक यह मानता है कि ग्राहक से वास्तविक जानकारी प्राप्त हुई है। जहां तक बैंक का रांबंध है, हम पूरी तरह से गोपनीय दी पिन नंबर विवरण और/या किसी अन्य गोपनीय विवरण पर जाते हैं और ऐसे मामलों में बैंकउत्तरदायी नहीं होगा। यह सलाह दी जाती है कि खाताधारक थे पिन और/या गोपनीय विवरण को गोपनीयता के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। यदि बैंक वास्तविक रूप से थे पिन नंबर और या किसी गोपनीय विवरण पर कार्य करता है तो ग्राहक बैंक पर कोई दावा नहीं करेगा। ग्राहक मैजूदा प्रक्रिया के अनुसार आईवी आर प्रणानी के माध्यम से थे पिन नंबर वात्रन है। ग्राहक गेंग थे पिन नंबर और/या किसी अन्य गोपनीय विवरण पर कार्य गोपनीय विवरण पर कार्य के अनुसार आईवी आर प्रणानीय विवरण की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सहयोग करना आवश्यक है। दि is the responsibility of the account holder of Capital Small Finance Bank Ltd. to protect and safekeeping of the Telebanking PIN (TPIN) and any other information/details, which may be required by the Bank to establish the identity of the customer through Phone Banking. The bank shall be acting as per the confidential details provided by the account holder. In such cases, the Bank presumes that information has been received from the genuine customer and provides the services. As far as the Bank is concerned, we solely go by the confidential TPIN number and/or any other confidential details on the bank as the bank bonafied acts on the TPIN number and/or any other confidential details. The customer is free to change the TPIN number through the IVR system or as per the extant procedure. The customers are required to cooperate for the safe custody of the TPIN number and/or or any other confidential details.
- 5. मैं/ हम बैंक को मुझे/हमें एटीएम डेबिट काई जारी करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैं/हम स्वीकार करते हैं कि मैं/हम काई जारी करने और उपयोग करन सबित समय-समय पर लागू, नियमों और शर्तों होता है और इसके लिए बाध्य होने के लिए सहमत हैं। मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि बैंक द्वारा समय-समय पर नियमों और शर्तों में संशोध किया जा सकता है। मैं/हम बैंक को बिना शर्त और अपिरिवर्तनीय रूप से मेरे खाते से वार्षिक शुटक और एटीएम के उपयोग के लिए शुटक के बराबर राशि डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं। / We authorise bank to issue an ATM/Debit Card to me/us. I/We acknowledge that the issue and usage of the card is governed by the terms and conditions as in force from time to time and agree to be bound by the same. I/We accept that the terms and conditions are liable to be amended by bank from time to time. I/We further unconditionally and irrevocably authorise bank to debit my/our account with an amount equivalent to the annual fee and charges for use of the ATM/POS Terminals.
- 6. मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्घारित विनिमय नियंत्रण नियमों के अनुसार कार्ड का सख्ती से उपयोग करने का वचन देता हूँ। हम पुष्टि करते हैं कि उपयोग की जाने वाली विदेशी मुद्रा ब्यापार यात्रा की सीमा विदेशी मुद्रा प्रबंघन अधिनियम 1999 के अनुसार कोया, के भीतर होगी I/We undertake to strictly utilise the card in accordance with the Exchange Control Regulations as laid down by Reserve Bank of India from time to time . I/We confirm that the foreign exchange which will be used within the limits of the Business Travel Quota as per Foreign Exchange Management Act 1999.
- 7. में एहम उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे जो भारतीय दिख़ें बैंक द्वारा विदेशी सुद्रा के उपयोग के संबंध में जारी किए गए हैं। मैंमें/हमने उन नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है जिनकी एक प्रतिलिपि मेरे पास बैंक में खाता खोलने और एटीएम डेंबिट कार्ड / फोन बैंकिंग) मेंचाइल बैंकिंग। संदर्शन के किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है में सहमत हूं कि बैंक समय—समय पर लागू सेवा थुल्क के लिए मेरे खाते से डेंबिट कर सकता है। I/We will adhere to guidelines, which are issued by the Reserve Bank of India concerning the use of foreign exchange. I/We have read and understood the Terms and Conditions (a copy of which I am in possession of) governing the opening of an account with bank and those relating to various services including but not limited to ATM/Debit Card/Phone Banking/Mobile Banking/ Internet Banking. I accept and agree to be bound by the said Terms and Conditions including those excluding /limiting the Bank's liability. I/We understand that the Bank may, at its absolute discretion, discontinue any of the services completely or partially without any notice to me/us. I agree that the bank may debit my account for service charges as applicable from time to time.
- 9. मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूं कि वितोध वर्ष के दौराज भारत में सभी सोतों से खरीदी गई या उनके माध्यम से प्रेषित विदेशी मुद्रा को कुल राशि मौजूदा फंमा विनियमध्वारीकह | 5 प्रेषण योजना दिशानिर्देशों या किसी अन्य विनियम के अनुसार है। ध्समय—समय पर लागू दिशानिर्देश और प्रमाणित करता हूं कि उक्त प्रेषण के लिए धन का स्रोत में हं और विदेशी मुद्रा का उपयोग निषिद्ध उद्देश्यों (विशेष रूप से अपुस्ती—या किसी अन्य लागू के तहत पात्र उद्देश्यों के लिए है। I/we hereby declare that the total amount of foreign exchange purchased from or remitted through, all sources in India during the financial year is as per the extant FEMA Regulations/Liberalized Remittance Scheme Guidelines or any other regulations/guidelines applicable from time to time and certify that the source of funds for making said remittance belongs to me and the foreign exchange will not be used for prohibited purposes (specifically prohibited under Schedule-II or any other applicable guidelines), and Foreign exchange purchased from/remitted through you is for eligible purposes under FEMA Regulations /Liberalized Remittance Scheme Guidelines or any other guidelines applicable from time to time.

Most Important Document		Date:	Customer's Copy
You have subscrided for the product	with applicable Average Quartely/Monthly Balance Rs		

- The Bank official has explained you the Terms & Conditions of Account opening, Features and Charges of Product.
- The Bank official has explained you the Most Important Document as set out in the Bank's Account opening form including consent and declaration and you have signed the same after understanding and accepting the terms contained therein.
- The account shall be opened subject to verification of document, clearance of Initial Payment cheque & Bank may reject/cancel your request in case of any discrepancies.

- 10. कैंपिय्ल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेजे गए स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन अलर्ट/वन टाइम पासवर्ड के कारण गोपनीयता के किसी भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। ग्राहक उन्हें प्राप्त होने वाले ईमेल एसएमएस की प्रामाणिकता को सत्यापित करेगा। यदि एसएमएस गेटवे के लिए हमारे कंप्यूटर नेटबर्क में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ग्राहक बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा / विदे ग्राहक को दिए गए गलत ईमेल पते के मोबाइल नंबर और तकनीवी कारणों से ईमेल एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा // Capital Small Finance Bank Ltd. will not be liable or responsible for any breach of secrecy because of Statements, Transaction alerts, One Time Password (OTP) sent on e-mail or mobile number provided by the customer. The customer shall verify the authenticity of the emails/SMS they receive. The customer shall not hold the bank liable if any problem arises with our computer network or SMS gateway. The bank shall not be responsible if the customer does not receive email/SMS due to incorrect email address/mobile no. provided and due to technical reasons.
- 11. मैं/हम बैंक को इस फॉर्म में उल्लिखित मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ईमेल स्टेटमेंट/ एसएमएस और ईमेल/ ट्रांजेक्शन अलर्ट/ ओटीपी भेजने के लिए अधिकृत करता हूं। जमा किया गया पंजीकरण परिवर्तन अनुरोध इस फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी के संबंघ में किसी भी पिछले सूचना अनुरोध को ओवरराइड कर देगा। We authorise the Bank to send the email statements/SMS and email transaction alerts/OTP on the email ID and mobile number mentioned in this form. The registration/change request submitted will override any previous information/requests with respect to the information provided in this form.
- 12. मैं/हम घोषणा करते हैं कि खातों को नियंत्रित करने वाले बैंकों के नियम और विनियम मेरे/हमारे द्वारा पढ़े गये हैं। मैं/हम इसका और समय-समय पर किए गए किसी भी परिवर्तन का पालन करने के लिए सहमत है।/We declare that Bank's Rules and Regulations now in force governing the accounts are read by me/us. I/We agree to abide by the same and also any changes made from time to time.
- 13. मैंबे/हमने बैंक को समय—समय पर लाजू सेवा वार्षिक शुल्क के साथ मेरे खाते को डेबिट करने के लिए अधिकृत किया है। रांग्रह के लिए समय—समय पर लाजू सेवा वार्षिक शुल्क के साथ मेरे/हमारे द्वारा दर्ज किए काए बिल के मामले में आप मेरे/हमारे जोखिम और जिन्मेदारी पर और अपने विवेक पर किसी भी बैंक में और किसी भी माध्यम से उन्हें संग्रह के लिए भेज सकते है।।/We authorise the Bank to debit my/our account with applicable service, annual charges from time to time. In the matter of bills, cheques etc., lodged by me/us with you from time to time for collection, you may send them for collection, to any Bank and through any mode, at your discretion, at my/our risk and responsibility.
- 14. मैं/हम हर समय निर्धारित न्यूनतम औसत शेष राशि बनाए रखने का वचन देते हैं बैंक मेरे/हमारे द्वारा जारी किए गए वेकों को वापस करने के लिए स्वतंत्र है जो न्यूनतम शेष राशि से कम हैं।
 I/We undertake to maintain stipulated minimum /average balance at all times. Bank is at liberty to return cheque(s) issued by me/us falling short of minimum balance.
- 15. मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि अपर्याप्त निधि के कारण हमारे किसी भी चेक के अनादरित होने की गुंजाइश नहीं देंगे। बैंक इस तरह के अनादर के मामले में बिना किसी नोटिस के मेरा/हमारा खाता बंद करने के लिए स्वतंत्र है। I/We also undertake not to give scope for dishonour of any of our cheques on account of insufficient funds. Bank is at liberty to close my/our A/c without any notice in case of such dishonour.
- 16. मैं (हम समझते हैं कि बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को बैंक लाइसेंस के परिसमापन/रद्दीकरण की तारीख को समान अधिकार और समान क्षमता में मूलधन और ब्याज दोनों राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। जिस पर समामेलन/विलय/पुनर्निर्माण की योजना लाजू होती है। |/We understand that each depositor in a bank is insured upto a miximum of Rs 5 Lac for both Principal and Interest amount held by his/her in the same right and same capacity as on the date ofliquidation/cancellation of bank license or the date on which the scheme of amalgamation/merger/reconstruction comes into force.
- 17. मैं हम इस खाते पर आपके पास जाने वाले किसी भी पैसे के लिए आपके कमीशन ब्याज और अन्य शुल्कों और किसी भी कारण से खाते में उत्पन्न होने वाले किसी भी हैबिट शेष के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होने का वचन देते हैं। I/We undertake to be jointly and severally liable to you for any money(ies) owing to you on this account, including your commission, interest and other charges and for any debit balances arising in the account for what so ever reason.
- 18. मैं/हम फर्म कंपनी के गठन में किसी भी परिवर्तन और खाते के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य परिवर्तन के बारे में बैंक को सूचित करने का वचन देते हैं।।/We undertake to notify the Bank of any changes in the constitution of the firm/company and any other changes effecting the conduct of the account.
- 19, यदि खाते में 2 साल की अवधि के लिए कोई लेनदेन नहीं होता है तो खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। बैंक को स्वीक्ष्य अपने मूल पहचान प्रमाण दस्तावेजों के साथ निकटतम शाखा में जाकर खाते को सिक्र्य करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करना होगा। जो खाते 10 वर्षों से संचालित नहीं हैं, उन्हें दावारहित के रूप में चिद्धित किया जाएगा।/ The account would be treated as dormant if there are no transactions in the account for a period of two years. A request for activation of account has to be made in writing by visiting a nearest branch with his/her original identity proof documents acceptable to the Bank. Accounts which are not operated for Ten years will be marked as "Unclaimed".
- 20. मैं,हम सहमत हैं कि मेरे,हमारे व्यक्तिगत केवाईसी विवरण,केंद्रीय केवाईसी रिजस्ट्री के साथ साझा किए जा सकते हैं और मैं,हम उपरोक्त पंजीकृत नंबर ईमेल पते पर एसएमएस / ईमेल के माध्यम से बैंक केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी अन्य सहमति देते हैं। I We agree that my/our personal / KYC details may be shared with Central KYC Registry and I/we hereby give my/our consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry or any other authority through SMS/Email on the above registered number/email address.

सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज Most Important Document

- 1. मैं/हम खाता खोलने के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने की पुष्टि करता हूं Capital Small Finance Bank की सभी शाखाओं में उपलब्ध है और जो बैंक की वेबसाइट www.capitalbank.co.in
 पर भी उपलब्ध है। I /We confirm having read and understood Terms and Conditions of Account opening, which is available at all the branches of Capital Small Finance Bank and which is also available on bank's website www.capitalbank.co.in.
- 2. मैंने एमआईडी की ब्राहक प्रति में उल्लिखत महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझा है। मैं/हम इसके या समय-समय पर लागू होने वाले किसी अन्य नियम का पालन करने के लिए बाध्य होने के लिए सहमत हूँ I/We have also received, read and understood important terms and conditions as mentioned in the customer copy of the MID.
- 3. मैं/हम एतद्वारा सहमत हूं,हैं कि बैंक समय—समय पर लागू सेवा शुल्क के लिए मेरे खाते से डेबिट कर सकता है I / We agree to be bound by and abide by it or any other rules that may be in force from time to time.

'हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान आवेदक —1
*Signature (s) / Thumb Impression
of 1" Applicant

'हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान आवेदक —2 *Signature (s) / Thumb Impression of 2nd Applicant

ग्राहक हस्ताक्षर सत्यापन प्रमाणपत्र Customer Singnature Verification Certificate

'हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान आवेदक —3 *Signature (s) / Thumb Impression

कृप्या सही विकल्प चुने (Please tick as appropriate यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण मे उनः In case where ID Proofs submitted by the applia		
यदि जमा किये गये प्रमाण पर हस्ताक्षर खाता के		n.
1 st आवेदक1 st Applicant	2 nd आवेदक 2 nd Applicant	उ [™] आवेदक 3 [™] Applicant

उपयुक्त ग्राहक / आवेदक ने मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये है। The above said customer(s) / Applicant(s) has / have signed in my presence.

शाखा प्रमुख /के वाई सी अनुपालन /आपरेशन प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर (Sign of Br Head / Ops Head / KYC Compliance Officer)

Capital Small Finance Bank 🔀

प्राप्त ID Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR ADHAAR ADHAAR Religion *श्विद्या का नाम "Father's Name "भारता का नाम "Father's Name "भारता का नाम "Spouse Name "जीवन साथी का नाम "Spouse Name "च्यायी निवास पता Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1st Applicant Signature / Thumb Impression of 1st Applicant Applican	/c a			Customer Id Place of Birth Risk Categorisation
*नाम Name *जन्म तिथि DOB D MM Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	्र गारक D	गाइक ID जाखिम वेगाकरण जाखिम वेगाकरण	XIQ4/ ID	Customer III
*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	XIQ47 ID	31647 ID	Customeria Transfer acegorisation	THE NAME
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. Passport No	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN प्रमणेर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR ADHAAR ADHAAR के 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याच 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN प्रमणेर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR ADHAAR ADHAAR के 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याच 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	MA ICHA DOD D D M M T T T T T TOTAL TOTAL TOTAL STATES TO STATES T
बोटर ID	वोटर ID Voter ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN PAN Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name DOB DOM MYYYY *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name Under Id DOB DOM MAY Y Y Y * वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*नाम Name	
Voter ID	Voter ID	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender 📗 पुरूष Male 📗 स्त्री Female 📗 किन्नर Transgender 📗 *राष्ट्रीयता Nationality 📗 भारतीय Indian 📗 अन्य Others
ह्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	ह्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others* *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST
प्रार्म 60 *धर्म *श्रैक्षाणिक योग्यता रोज़गार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Address *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applic	फार्म 60 *धर्म *Religion *शैक्षाणिक योग्यता *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Spouse Name *खायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others* *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न.
Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *खायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1 *Applicant	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. Passport No. PAN
*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'औवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता 'Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*िलंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पैन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार AADHAAR
*Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *खायी निवास पता *Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1 * Applicant	*Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'ख्यारी निवास पता *Permanent Address *August Parameter Address *August Pa	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *ध्रम् *ध्रम् *शैक्षाणिक योग्यता रोजगार Passport
*Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता 'Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	*Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता 'Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR RADHAAR RADHAAR Passport Form 60 *धर्म *हligion *Qualification Passport Size Photo
'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name '*स्थायी निवास पता 'Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*खारी निवास पता *Permanent Address * L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*िलंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender रराष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
*स्थायी निवास पता *Permanent Address	*स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पिन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म शैक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पैता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Father's Name * माता का नाम * माता का
*Permanent Address Impression of 1st Applicant Impression of 1st Applicant	*Permanent Address Impression of 1st Applicant Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. Passport No. PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR ADHAAR PASSPORT Form 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *मारा का नाम *Mother's Name *Mother's Name *1 मारा का नाम *1 मारा का ना
		Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. Passport No. PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR ADHAAR PASSPORT Form 60 *धर्म श्रिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name भारता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'जीवन साथी का नाम 'जीवन साथी क
CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO	CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO	Customer Id Place of Birth Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name "जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others "लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others "जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Разsport No. РАВ	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आह्यार AADHAAR फार्म 60 *धर्म शिक्षांत्रां
		Customer Id *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइतिंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN हाइतिंग लाइसेंस Driving Licence अधार के तिर्माणक योग्यता रोजगार Occupation *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name माता का नाम *Mother's Name प्रीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता Permanent Address Signature / Thumb Impression of Asteroidance of Asteroi
मेल का पता	मेल का पता	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *and Risk and Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न मुक्क PAN Voter ID Passport No. अहारार AADHAAR ADHAAR ADHAAR ADHAAR ** Form 60 *हाईविंग लाइसेंस Driving Licence ADHAAR ADHA	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न Passport No. अहावर AADHAAR ADHAAR सेवानार Form 60 *हाईविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR 'रोजगार Passport Size Photo *पैता का नाम Father's Name 'मारता का नाम 'Father's Name 'नाता का नाम 'Spouse Name 'स्वायी निवास पता 'Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1st Applicant Signature / Thumb Impression of 1st Appli	*नाम Name *जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टाधार मेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टाधार मेन कार्ड PAN Form 60 *Religion *शैक्षाणिक योग्यता रोज़गार Occupation *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name मानत का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *प्रायो निवास पता मेन प्राया में मित्रा स्वायी निवास पता मेन मित्रा स्वायी मेन साथी का नाम मेन मित्रा स्वायी मेन साथी का नाम मेन मित्रा स्वायी मेन साथी का नाम मेन मित्रा स्वायी निवास पता मेन मित्रा स्वायी मेन साथी का नाम मेन मित्रा साथी मेन साथी मित्रा साथी साथी मित्रा साथ
Mailing Address	. Mailing Address	Customer Id	Customer Id	*नाम Name "जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others
	maining routions [] [] [] [] [] [] [] [] [] [Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id	*नाम Name "जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others
CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO		Customer Id Place of Birth Risk Categorisation "नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married जन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
र्द मेल आद डी Fmail ID	LANDMARK	Customer Id	Customer Id	"नाम Name "जान्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
	C T Y P N C D E S T A T E C O U N T R Y M O B L E N O Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one Y N	Customer Id	Customer Id	*नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*लंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender रगस्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
्रिताय चरम Income Slab:<1 Lac >1-2.50 Lac >2.50-5 Lac > 5 Lac	दं मेल आइ डी Email ID LANDMARK CITY MOBILE NO Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one TN बहुता आप राजनीतिक हम से जजागर व्यवसार (वीईप) है या करिये से संबंधित है	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म शिक्ष DOB D MM Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married जन्म Others	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
	र्ट । T Y P I N C D E S T A T E C D U N T R Y M D B I L E N D M A R K इ मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one प्रा क्याय चरम Income Slab: लाख राख लाख >2.50-5 Lac >5 Lac	Customer Id Customer In Customer Id Customer In Customer Id Customer Id Customer Id Customer In Customer Id Customer In Custo	Customer Id Place of Birth Place of Birth Risk Categorisation **TITH Name **In Mame	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*लंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender "राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
Source of fullida and a series	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one प्राप्त क्या आप राजनीतिक प्र से जजागर प्रकार (गिईप) है या किसी से संबंधित है *आय चरम Income Slab: <1 Lac	Customer Id Customer In Customer Id Customer In Customer Id Customer In Custo	Customer Id TITM Name TI	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*सिंग Gender पुरूष Male रत्नी Female किन्नर Transgender रराष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
*Net Worth Upto Rs. 100 Lac Above Rs. 100 Lac to 200 Lac Above Rs. 200 Lac To 500 lac Above Rs. 500 Lac	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one प्राप्त करिया करिय	Customer Id "नाम Name "जन तिथि DOB D M M Y Y Y ' वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married जन्य Others	Customer Id	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y V Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	"लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender "राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one प्रा क्षाय चरम Income Slab: *आय चरम Income Slab:	Customer Id "नाम Name "जन तिथि DOB D M M Y Y Y Y वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	Customer Id	*নাদ Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *विंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पष्ठची जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोचर ID Voter ID	*सिंग Gender पुरुष Male रन्नी Female िकन्तर Transgender राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others
	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one शि क्याय चरम Income Slab: *आय चरम Income Slab:	Customer Id -नाम Name 'जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y 'वैवाहिक वर्ग Marital Status	Customer Id	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D MM Y Y Y Y Palafiga वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	"सिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female िक नार Transgender पराष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
* सी के वाई सी नया मौजूदा कोई परिवर्तन नहीं मौजूदा में परिवर्तन सी के वाई सी नंबर *CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No.	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one शि क्याय चरम Income Slab: *आय चरम Income Slab:	Customer Id -नाम Name 'जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y 'वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married जन्म Others	Customer Id	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D MM Y Y Y Y Palafiga वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	"सिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female िक नार Transgender पराष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation Risk Categorisation Risk Categorisation Risk Categorisation ज्ञाम (All DOB	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y "बैबाहिक वर्ग Marital Status प्रकल Single विवाहित Married अन्य Others	"सिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female िक नार Transgender "पास्त्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) भाग A PART A हा Yes ना No भाग बी / PART B	ई मेल आइ डी Email ID STATE COUNTRY MOBILE NO	Customer Id -नाम Name जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y अवैवाहिक वर्ग Marital Status प्रकल Single क्वाहित Married अन्य Others	Customer Id -नाम Name	"नाम Name "जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y वैबाहिक वर्ग Marital Status	'शिंग Gender पुष्कष Male स्त्री Female किन्नर Transgender राष्ट्रीयसा Nationality सारतीय Indian अन्य Others
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID Find P N D E S T A T E D N T RY M D M R K	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation शाम Name जिस्ता Dob D D M M Y Y Y अविवाहिक वर्ग Marital Status प्रकल Single किवाहिक Married अर्थ Others जिस्ता किवाहिक वर्ग Marital Status प्रकल Single किवाहिक Married Image of Marital Status प्रकल Single किवाहिक Married Image of Marital Indian जिस्ता जिस्ता किवाहिक वर्ग Marital Status प्रकल Single किवाहिक Married Image of Marital Indian जिस्ता जिस्ता किवाहिक वर्ग मानविव जिस्ता	"नाम Name	*Reira Gender पुरुष Male स्त्री Female किन्तर Transgender पण्डरीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one TN श्वाय चरम Income Slab: लाख निर्माण प्राथ जानीनिक प्रा से जनागर प्रकारी के प्राथ जननीनिक प्रा से जनागर प्रकारी के प्राथ जनमा प्रकारी के प्रवास के प्रकार प्रकारी के प्रवास के प्रकार जनमा प्रकारी के प्रवास के प्रकार जनमा प्रकारी के प्रवास	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	*जाम Name	*Rifu Gender पुरुष Male स्वी Female किन्तर Transgender राष्ट्रीयता Nationality वारतीय Indian अन्य Others
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one आय वस्ता आप राजनीतिक द्वा से जनार प्राचनितिक द्वा सित्क व्वा सित्व से जनार प्राचनितिक द्वा सित्व स्व से जनार प्राचनितिक द्वा सित्व स्व से अवाव किती अन्य देश के नारिक हैं जिसमें गीन कार भी शामित हैं?	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation Risk Categorisation Risk Categorisation Place of Birth Risk Categorisation Risk Categoris	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation वाम Name "जन्म Riffa DOB D MM Y Y Y "वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married जन्म Others	"जाम Name "जाम तिथि DOB M M Y Y Y "तैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others जाम तिथि DOB जाम प्राप्तीय Indian जाम जिए कार्या प्रकार जाम जिए कार्या जाम जिल्ला कार्या जाम जिल्ला कार्या जाम जिल्ला कार्या जाम जाम जाम जिल्ला कार्या जाम जाम जिल्ला कार्या जाम जाम जिल्ला कार्या जाम जाम जाम जिल्ला कार्या जाम जाम जाम जाम जाम जाम जाम जाम जाम जा	*सिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female िकन्तर Transgender रस्त्रीयवा Nationality मारतीय Indian अन्य Others
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one \[क्षाय चरम Income Slab: <1 Lac >1-2.50 Lac >2.50-5 Lac >5 Lac *आय चरम Income Slab: <1 Lac >1-2.50 Lac >2.50-5 Lac >5 Lac *आय के साधन वेतन पैशन व्यापारिक आय कृषि निवेशित आय किराए अन्य किसें संस्वाति है *5ource of Funds Salary Pension Business Income Agriculture Investment Income Rental Others Please Specify * कु आय ए. 100 लाख तक Above Rs. 100 Lac to 200 Lac Above Rs. 200 Lac To 500 lac Above Rs. 500 And Upto Rs. 100 Lac Above Rs. 100 Lac to 200 Lac * सीं के वाई सी नया मौजूदा कोई परिवर्तन नहीं Existing No change मौजूदा में परिवर्तन सीं के वाई सीं नंबर CKYC No. * कर You all winds Are you (Litzer of angli किसी) अन्य देश के अलावा कोई देश है? Is your Country of birth is any country other than India? Upto Rs. 100 Lac to 100 Lac Are you (Litzer of angli and angli	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	"नाम Name	*सिंग Gender पुरूष Male क्षित हिमाब िक नार Transgender पर्द्रोचता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID Try	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	Customer Id Place of Birth Name "जन्म Risk DOB D D M M Y Y Y P नेवाहिक को Marital Status U एकल Single विचाहित Married are of Others	-नाम Name	*Rêir Gender
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID जाख	Customer Id Place of Birth Name 'जन्म Rifle DOB	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	-नाम Name	*Reira Gender
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID First Carl Criss Fat Carl Cris	Customer Id	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Does Place of Birth Risk Do	-नाम Name	'सिंग Gender
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one [Y]	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation Risk Categorisation Place of Birth Risk DOB MM M M M M M M M M M M M M M M M M M	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation Risk Categorisation Place of Birth Roman Place of Roman Place of Birth Roman Place of Roman P	न्याम Name	'सिंग Gender
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID PINCOPE STATE COUNTRY MOBILE NO इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE STATE COUNTRY MOBILE NO इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE STATE COUNTRY MOBILE NO इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE STATE COUNTRY MOBILE NO इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE STATE COUNTRY MOBILE NO इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE STATE COUNTRY PINCOPE Person PERSON PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE STATE PINCOPE PINCOPE PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE PINCOPE PINCOPE PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE PINCOPE PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE PINCOPE PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE PINCOPE PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE PINCOPE PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE PINCOPE PINCOPE इं मेल आइ डी Email ID PINCOPE इं मेल आइ डी मार के अलावा के दीवारों को बारिक है हिस्से का का वीतार है विवार के स्वार प्रात्त के स्वाराव के स्वाराव PINCOPE इं प्राप्त Country of Birth PINCOPE इं प्राप्त Country of Birth PINCOPE इं प्राप्त के आइ वाजा कि आई आई है हिस्से प्राप्त में सहर है विवार के सहर का आपका प्राप्त प्राप्त में सहर है विस्त प्राप्त मार है विवार के सहर का आपका प्राप्त प्राप्त में है अपका विवार है विवार के सहर का आपका प्राप्त प्राप्त में है शिक क्या प्राप्त है है लिक प्राप्त मार है विवार के सहर का आपका प्राप्त के सहर का आपका प्राप्त है है हिस्से प्राप्त मार है विवार के सहर का आपका प्राप्त के सहर को आपका प्राप्त है विवार के सहर का आपका प्राप्त के सहर को आपका प्राप्त है विवार के सहर का आपका प्राप्त के सहर को आपका प्राप्त है है है कि साज प्राप्त मार है विवार के सहर प्राप्त में के प्राप्त में के स्वार का स्वार के स	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Does Place of Birth Risk Risk Does Place of Birth Risk Risk Does Place of Birth Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	न्माम Name 'जन्म तिथि DDB जिल्ला पुरुष Male रेबी हिंदस वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married जन्म Others जन्म तिथ हिंदम विवाहित जन्म जिल्ला जन्म जन्म जन्म जन्म जन्म जन्म जन्म जन्म	'सिंग Gender पुरुष Male श्री Female किन्नर Transgender राष्ट्रीयता Nationality प्राप्तीय Indian अन्य Others
#CKYC New Existing No change Existing Update change Existing Update change Existing Update change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one ार वाल अप आप अप Income Slab: दाख >1-2.50 Lac >2.50-5 Lac >5 Lac अताब अप Income Slab: दाख >1-2.50 Lac >2.50-5 Lac >5 Lac अताब अप Income Slab: दाख >1-2.50 Lac >2.50-5 Lac >5 Lac अताब अप Income Slab: दाख >1-2.50 Lac >5 Lac >5 Lac अताब अप Income Slab: दाख अताब अप Income Slab: अताब अप Income Slab: दाख अताब अप Income Slab: दाख अताब अप Income Slab: अताब अप Income Slab: दाख अताब अप Income Slab: अता	Signature / Place of Birth Place of	Customer Id Place of Birth Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place Risk Risk Categorisation Place Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	नाम Name	'शिय Gender
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) ATTIMATION FORM - (INDI	रं भेल आइ डी Email ID An you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one जिला आप राज्यां कि साम जिला आप	User Maria De Disco of Birth Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	नाम Mame "अन्म अन्म अन्म अन्म अन्म अन्म अन्म अन्म	'নি'ৰ Gender
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID	Superfurner of design and superfusion and sup	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place of Birth Risk Risk Categorisation Place of Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk	नगा Name 'जन्म शिव DOB जिल्ला प्रकास Male प्रकास कर्मा Marital Status प्रकास Single Reaffer Married जन्म Others	निश्च Gender पुरुष Male श्वी Female किन्नस Transgender न्यास्त्रीया Nationality न्यास्त्रीय Indian जन्य Others
Existing No change	रं भेल आइ डी Email ID An you a Politically Exposed Person (PEP) or related to one जिला आप राज्यां कि साम जिला आप	Customer ld Place of Buth Risk Categorisation Place of Buth Ris	Customer id Place of Birth Risk Categorisation	-साम Mame	"तिया Gender पुरूष Male
#CKYC New Existing No change Existing Update Change Existing Upd	ई मेल आइ डी Email ID Are you a Politically Exposed Person (PEPP) or related to one]	Customer ld Place of Buth Risk Categorisation Place of Buth Ris	Customer ld Place of Birth Risk Categorisation	- अप- H (All P OOB प्राप्त M प्राप्त M प्राप्त M M प्राप्त M M M M M M M M M	'বিশ Gender पुरुष Male
#CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मेल आइ डी Email ID PIN	Customer ld Place of Buth Risk Categorisation Place of Buth Risk	Customer ld Place of Batth Risk Categorisation Place of Batth Risk Categorisation Risk Categorisation Risk Categorisation Risk Categorisation Party Transpare Service Risk Dob	- जाम Name	'Rêr' Gender' पुरुष Male
#CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	ई मैल आइ ही Email ID	Customer ld Place of Buth Pl	Customer la Place of Barth Place of Barth Risk Categorisation Place of Barth Risk	- जाम शिक्ष Pool	"Gerid Garder पुरुष Male रवी Female किन्मर Transgender "राष्ट्रीयया Nationality मारवीय Indian बन्म Others
#CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) माग A PART A छा Yes गा No	ई मेल आइ डी Email ID PIN	Customer le	Customer le Place of Birth War Risk Categorisation Place of Risk War Risk Wa	TRIN Rame	"शिम Gender पुष्प Male क्सी Female किन्मर Transgender "राष्ट्रीच्या Nationality मारवीरथ Indian बन्न Others
#TITA PART A a. बा आप मान के अवाता किसी अन्य देश के नाशिक हैं जिसमें ग्रीन कार्य भी सामित हैं? b. वया आपका जन्म देश मारत के अवाता कोई देश हैं? c. बया आपका जन्म देश मारत के अवाता कोई देश हैं? d. b. क्या आपका जन्म देश मारत के अवाता कोई देश हैं? d. b. वया आपका जन्म देश मारत के अवाता कोई देश हैं? d. b. outside India? e. बार अप मारत के अवाता किसी अन्य देश के कर निवारों हैं? d. b. outside India? e. बार के बाहर के आपका पित्र के अवाता किसी अन्य देश के कर निवारों हैं? d. b. outside India? e. बार के बाहर के आपका पित्र के अवाता किसी अन्य देश के कर निवारों हैं? d. b. outside India? e. बारत के बाहर का आपका पता यह देशिकों मान के बी अवात कार्य हैं हैं। If your answer to any of the above questions is a "YES" please fill Part B 1. मैं माणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉम में में महं जानकारी और मेर हारा प्रदान किए गए समर्थन रस्तावेजी साहक में सर्वोच मान के अनुसार अपनी विवार किया है कि आपका खोलने के फॉम में मैं महं जानकारी और मेर हारा प्रदान किए गए समर्थन रस्तावेजी साहक में सर्वोच मान और विवार के अनुसार, सर्वो के अनुसार, सर्वो के अनुसार, सर्वो के अनुसार, सर्वो के अनुसार, सर्वोच के अनुसार, व्यव के अवात किए के अनुसार अपनी निवार के अवात किए के अवात कि अवात के अनुसार अपनी हैं के अवात करने बोग्य खाते / अवात कि अवात के अवात कि अवात के अवात कि अवात के अवात कि अवात के अवात के अवात कि अवात के अवात कि अवात के अवात कि अवात के अवात कि अवात के अवात के अवात कि अवात के अवात के अवात कि अवात के अवात किया के अवात किसी के अवात किसी के अवात के अवात किसी के अवात के अवात किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी किसी	है मेल बाइ की Email ID वाल का प्राप्त के बाद की हिला हों का कार्य के बाद की हिला हों के बाई से निवार के बाद की कार्य के बाद की बाद की कार्य के बाद की कार्य के बाद की कार्य के बाद की बाद की कार्य के बाद की कार्य के बाद की बाद की कार्य के बाद की कार्य कर कार्य के बाद की बाद की कार्य कर की की कार्य के बाद की वाल की कार्य कर की की कार्य कर की की बाद की बाद की की	Customer to Place of Birth	Sustainer Place of Birth Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Risk Categorisation Place of Birth Place of Bir	नाम Name	বিশন Gender पुरूष Male श्री Female किल्पर Transgender "राष्ट्रीयवा Nationality पारवीरग Indian वन्य Others
#CKYC New Existing No change Existing Update Exist	है मैल बाह की Email ID वाल उत्तर में हैं। वाल अप के का के का के का किया है। वाल अप के का के का के का किया है। वाल अप के का के का के का किया है। वाल अप के का किया है।	Cusioner la Place of Birth Risk Categorisation	Gustomer Id	TITIN Name	Tell Gender पुरुष Male श्री Female किनार Transgender "राष्ट्रीयवा Nationality पारवीय Indian अन्य Others अविकास के श्री Caste category पारामण General पापकी काणि OBC एव की SC एव की ST प्राप्त के पारवा अविकास के प्राप्त के प्राप्त के पारवा अविकास के प्राप्त के पारवा अविकास के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के पारवा अविकास के प्राप्त के
#CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) जाम A PART A श्री अप मार्ग के अवाश कियों अप के नागिक हैं। कियों भीन करने भी शाकित हैं। जाम की PART B जाम की PART B	हैं तेल बाहू की Email ID वाल व	Customer la Place of Birth Place of Bi	Customer la Place of Birth Place of Birth Risk Categorisation Place of Richard	नारा Name	निश्तंत Gender ुक्त्रण Male ुक्ती Female किन्नर Transgender ुक्ति प्राप्ति Indian अन्य Others
#CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) THT A PART A जा जा मारत के अलगा कियो अप में सा अपनिक हैं। (daa/lamuliph) (including Green Card)? जा जा मारत के अलगा कियो अपने से के अपनिक हैं। (daa/lamuliph) (including Green Card)? जा अपने मारत के अलगा को है देश है? Is your Country of birth is any country other than India? जा अपने मारत के अलगा को है देश है? Is your Country of birth is any country other than India? जा अपने मारत के अलगा को है से सह के सिमान की से के स्वार के अलगा की अपने से के अपने के अपने निमान की साम की अपने के अपने के अपने निमान की अपने से के अपने निमान की अपने के अपने की अपने निमान की अपने क	से से बाइ की Email ID पाय के प्रकार के प्रकार की Email ID पाय की Email ID पा	Cistomer la Piece of Birth Rose	Gustioner Id Place of Brith Place of Brith Risk Categorisation Place of British Place of Brit	जार Name पूर्व Male पूर्व Female किन्पूर Transgender पर्श्व and training प्रकार Single विकास Married उपयो विकास Married	"Ref Gonder पुरुष Male et la Female ि Revert Transgender
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) TITLA PART A TITLA PART B TITLA PART B TITLA PART B TITLA PART B TITLA PART A TITLA PART B TI	से मेल बाइ की Email ID वाहाब 10 वाहाब वाहाब	Customer le very flafe DOB D D M V Per d'Arrenge et et manuel le le very le constitue de la company	Guistomer Ig Weer Malle eth Female Bever Transgender very fant Nationality steels in Indian sera Others	जार Name जा जा प्रशास के कि DOB जा जा जा जा कि कि DOB जा	पित Gendor पुरुष Male एकी Female कि-न्यर Transgender प्याप्तीय nationality अपरवीय Indian अग्न Others अपरविश्व ति के स्थाप के
#CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) A sun and metal and a start as surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? A sun and metal as a surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? A sun and metal as a sun and metal as a surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? D. करा and and the distance of the sun and the sun and metal starts \$ surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? D. करा and warron surf के बहुत मार के इस्त कार्ड के हिंदी है? D. करा and warron surf के बहुत मार के इस्त कार्ड के हिंदी है? A sun and warron surf के बहुत मार के इस्त कार्ड के हिंदी है? A sun and warron surf के बहुत मार के कार्ड के हिंदी है? A surfee warron surf के बहुत के कार्ड के हिंदी है? A surfee warron surfee § Read of ANY country of birth is any country of birth is any country of the surfee warron surfee warron of a surfee \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	हा का अप का पाल के अबात कि लग के निर्माण के कि का कि निर्माण के कि का	Substance of the control of the cont	Place of 6 firsh Place of 6	जार शिक्ष Dool जार के किस के किस के किस किस के किस किस के किस	Terri Gender पुरुष Male etil Female ि Revert Transgender
#CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) A sun and metal and a start as surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? A sun and metal as a surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? A sun and metal as a sun and metal as a surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? D. करा and and the distance of the sun and the sun and metal starts \$ surfee § Read जीन कार्ड भी माणित है? D. करा and warron surf के बहुत मार के इस्त कार्ड के हिंदी है? D. करा and warron surf के बहुत मार के इस्त कार्ड के हिंदी है? A sun and warron surf के बहुत मार के इस्त कार्ड के हिंदी है? A sun and warron surf के बहुत मार के कार्ड के हिंदी है? A surfee warron surf के बहुत के कार्ड के हिंदी है? A surfee warron surfee § Read of ANY country of birth is any country of birth is any country of the surfee warron surfee warron of a surfee \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	हैं मेल आई की Email ID हो प्राप्त के प्रथम Salary Pension Business Income Agriculture Rental The salary Pension Rental The salary Rental The	Customer Ig War Male self-Female Place of Birth Risk Categorisation Risk Cat	Place of 6 first Place of 6 first Place of 6 f	THE Name The Name	**Read Gender** 3 year Male** eath Female** Re-ver Transgender** **reflated Nationality** stretch stretc
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL)	्राप्त प्रस्था Income Slab:	Fig. 1 Country Piece of Berth Piece	Customer le la partir Name varie fiblis DOB Dal District Prince of Birth Prin	THE NAME SEED ON THE STATE OF T	First Gender gew Male eath Female Remark Transgender "exciting Nationality strictling Indian and Others
*CKYC New Existing No change Existing Update change CKYC No. FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) 1914 PARTA 15	है मेल बाइ दी Email ID हा 10 द हा जा प्रति हा जा	Figure 19 Piece of Birth Piece of Bi	Custioner le Tenant Risk Categoriation Place of Batth Risk Categor	Fire Gender yen Male eft Female en ever Transgender verfram Nationality erecting Indian service Control year Male eft Female en ever transgender verfram Nationality erecting Indian service Control year of Country and Annual Status even Single from Scott year of SC year of Year year year of Year year year year year year year year y	First Gender 949 Male 441 Female 18-mart Transgender "restant Nationality mrcthal Indian 342 Others
FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) का बार पार बे बार पार बे बार पार बे बार पार बे बार के किए बार के किए पार के	हैं भेल आहु ही Email ID	Place of Bath TRIS Categoristion Trist Name Trist N	Customer Ist Tell Name The Dobb Color of Service Administration of the Service Administration o	THE NAME	Trien Cender yew Male yeh Female Remort Transgender "resistant Nationality yet dis ST yet dis ST
FATCA/CRS DECLARATION FORM - (INDIVIDUAL) PART A SI YES TI NO SI YES TI NO SI YES SI YES SI NO SI YES SI	है मेल आहु की Email ID	Place of Buttle Place of But	Customer le la company and la compan	**HIN Name	**Right Gundor Year Maile celt Fernale Revert Transgender Trugtam Nationality verefix indian seri Others
FACK/CR DELIARATION FORM - (INDIVIDUAL) The part A B Yes	ह ने कर बाद की Email ID अहा अ	Customer 1g Place of Dirth Risk Categorisation Risk Ca	Place of Birth Risk Categoriation Place of Birth Pl	**FATE CANDED The Part The Pa	**Recent Passes of the Service of Transgender **Text Nationality weelfix indian area Others
मेल का पता	मेल का पता	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न Passport No. पन कार्ड PAN	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *िलंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. अग्रधार AADHAAR Form 60 *हाइविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR ADHAAR *Religion *श्वेशाणिक योग्यता Occupation Occupation *Pany *Nother's Name *Indian नाम *Father's Name *Indian नाम *Spouse Name *Qualification *Qualification *Qualification *Qualification *Qualification *Spouse Name *Qualification *Qual	*नाम Name *जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार फार्म 60 *हम्मं *शैक्षाणिक योग्यता रोज़गार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम "Father's Name मार्ना का नाम "Mother's Name जीवन साथी का नाम "Spouse Name "चीवन साथी का नाम "Spouse Name "स्थायी निवास पता "Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 "Applicant
		Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. Passport No. Passport No. इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR ADHAAR फार्म 60 *धर्म *शैक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Religion नाम *There's Name *पीवन साथी का नाम *Mother's Name *पीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Spouse Name ** *श्रिकारिक प्रतिवास पता ** *Spouse Name ** *श्रिकारिक प्रतिवास पता ** *Permanent Address ** *श्रीकार्या निवास पता ** *Spouse Name ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
		Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. Passport No. Passport No. इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR ADHAAR फार्म 60 *धर्म *शैक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Religion नाम *There's Name *पीवन साथी का नाम *Mother's Name *पीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Spouse Name ** *श्रिकारिक प्रतिवास पता ** *Spouse Name ** *श्रिकारिक प्रतिवास पता ** *Permanent Address ** *श्रीकार्या निवास पता ** *Spouse Name ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
		Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. Passport No. Passport No. इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR ADHAAR फार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *शिक्षाणिक योग्यता *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम **Name **Indian नाम *Mother's Name **Indian नाम **Mother's Name **Indian नाम **Spouse Name **Reulain नाम **Permanent Address **Indian Hall का नाम **Indian Hall का नाम **Spouse Name **Reulain Hall का नाम **Reulain Hall का नाम **Spouse Name **Reulain Hall का नाम **Spouse Name **Reulain Hall Address **Spouse Na
CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO	CITY PINCODE STATE COUNTRY MOBILE NO	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN *शैक्षाणिक योग्यता ऐतेजगार Form 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता *Qualification Occupation Size Photo *पैता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *पाता का नाम *Mother's Name *पाता का नाम *Mother's Name *पाता का नाम *Spouse Name *रइश्वा का नाम *Spouse Name *रइश्व का नाम *रइश्व का नाम **Spouse Name *रइश्व का नाम *रइश्व क
		Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. Passport No. PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN Form 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *मारा का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *Spouse Name
LANDMARK 1st Applicant	LANDMARK 1st Applicant	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पिन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN Form 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name भारता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'जीवन साथी का नाम 'जीवन साथी का न
*Permanent Address Impression of 1st Applicant Impression of 1st Applicant	*Permanent Address Impression of 1st Applicant Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पिन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार कार्म 60 *धर्म Passport No. Passport N
*Permanent Address Impression of 1st Applicant Impression of 1st Applicant	*Permanent Address Impression of 1st Applicant L A N D M A R K	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*िलंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PASSPORT Form 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *Name *Na
*स्थायी निवास पता *Permanent Address LLANDMARK Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	*स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR ADHAAR wiff 60 *धर्म *शैक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name **Indian का नाम **In
*Spouse Name *खायी निवास पता *Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	*Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पिन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म शैक्षाणिक योग्यता रोज़गार Occupation Size Photo *पैता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Father's Name * माता का नाम * Table ** Name * Table ** Name * Nam
'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name '*स्थायी निवास पता 'Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*खारी निवास पता *Permanent Address * LANDMARK I "Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*िलंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others
*Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	*Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता 'Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*िलंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PASSPORT No. Passport No. Voter ID Recent PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence श्रीक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo
*माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	*माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पैन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR Recent Passport
*Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *खायी निवास पता *Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1 * Applicant	*Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'ख्यारी निवास पता *Permanent Address * Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पैन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR Recent Passport
*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साशी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address L A N D M A R K *Applicant	*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*िलंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पैन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार AADHAAR
Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1 *Applicant	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. Passport No. PAN
भार्म 60 *धर्म *Religion *श्रीक्षाणिक योग्यता	wiff 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता	Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others* *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न.
प्रार्म 60 *धर्म *श्रैक्षाणिक योग्यता रोज़गार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Address *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Applicant *Address *Applicant *Applic	फार्म 60 *धर्म *Religion *शैक्षाणिक योग्यता एरेजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others* *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST
Voter ID	Voter ID	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender 📗 पुरूष Male 📗 स्त्री Female 📗 किन्नर Transgender 📗 *राष्ट्रीयता Nationality 📗 भारतीय Indian 📗 अन्य Others
Voter ID	Voter ID	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender 📗 पुरूष Male 📗 स्त्री Female 📗 किन्नर Transgender 📗 *राष्ट्रीयता Nationality 📗 भारतीय Indian 📗 अन्य Others
बोटर ID	वोटर ID Voter ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN sigilar लाइसेंस Driving Licence Sigilar of the AADHAAR PAN	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name DOB DOM MYYYY *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name DOB DOM MYYYYY *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN प्रमणेर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR ADHAAR ADHAAR के 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याच 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	WHI ICIA DOP
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अगधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*ZZZZ PART DOR D D M M V V V V V V V V V V V V V V V V
*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोज़गार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पेता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *रथायी निवास पता 'Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	XIQ47 ID	31647 ID	, outlier in the state of the s	- 11 Name
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोज़गार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पेता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *रथायी निवास पता 'Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant	XIQ47 ID	31647 ID		
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN	XIQ47 ID	31647 ID		
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others	XIQ47 ID	31647 ID		
*जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	XIQ47 ID	31647 ID		············
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	XIQ47 ID	31647 ID		
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN	XIQ47 ID	31647 ID		
*जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	XIQ47 ID	31647 ID	, outlier in the state of the s	े नाम Name
*जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	XIQ47 ID	31647 ID	Customer Id L	*नाम Name
*नाम Name *जन्म तिथि DOB D MM Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status		910W 117	XIQ4/ ID	Customer III
*नाम Name	*नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	्र गारक ID 📑 📑 📑 जिस स्थल 📑 📑 📑 जीखिम वर्गीकरण 📑 📑	गाइक ID 🔠 📉 📉 जन्म स्थल 📋 📉 📉 जीखिम वर्गीकरण 🖂 🖂 🖠	XIQ4/ ID	Customer III
Customer Id *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. पैन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टाप्त अन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status Uकल Single विवाहित Married Single Paralle Married Indian	गारक ID जिस्सा वर्गीकरण जिस्सा वर्गीकरण जिस्सा वर्गीकरण जिस्सा वर्गीकरण जिस्सा वर्गीकरण	गाइक ID जिल्ला जोखिम वर्गीकरण जोखिम वर्गीकरण जोखिम वर्गीकरण जोखिम वर्गीकरण		Customer Id Place of Birth Risk Categorisation
Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टिम कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टिम विवाह के स्थान अर्था अर्थात का नाम "श्वाह का नाम "Qualification Occupation Occupation Size Photo *पेता का नाम "Spouse Name "वान सामी का नाम "Spouse Name "वान सामी का नाम "Spouse Name "स्थायी निवास पता Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant Applicant Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	गारक ID जिस्स स्थल जिस्स वर्गीकरण जिस्स तर्गीकरण जिस्स तर्गीकरण	महरू ID [] जिस्स कार्मिकरण [] जिस्स कार्मिकरण []		Customer Id Place of Birth Risk Categorisation
Customer Id	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टिम कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टिम विवाह के स्थान अर्था अर्थात का नाम "श्वाह का नाम "Qualification Occupation Occupation Size Photo *पेता का नाम "Spouse Name "वान सामी का नाम "Spouse Name "वान सामी का नाम "Spouse Name "स्थायी निवास पता Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant Applicant Signature / Thumb Impression of 1 Applicant		15 Total Tot		Customer Id Place of Birth Risk Categorisation
Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टिम कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टिम विवाह के स्थान अर्था अर्थात का नाम "श्वाह का नाम "Qualification Occupation Occupation Size Photo *पेता का नाम "Spouse Name "वान सामी का नाम "Spouse Name "वान सामी का नाम "Spouse Name "स्थायी निवास पता Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant Applicant Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	पान् । जिस्सा जिस्सा जीविय वर्गीकरणा जीविय वर्गीकरणा	मार्ट ID [] । । । जन्म स्थल [] । जन्म स्थल [Customer Id Place of Birth Risk Categorisation
*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		The DOR DOR DOWN VVVV Andre The Single Street Street
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. Passport No. PAN PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोज़गार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पेता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *रथायी निवास पता Permanent Address *रथायी निवास पता Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 *Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. Passport No	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status	XIQ47 ID	31647 ID		
*लिंग Gender पुरुष Male स्त्री Female किन्नर Transgender रराष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोज़गार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पेता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *रथायी निवास पता 'Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		
*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian जन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. विकास कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य क	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोज़गार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पेता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *रथायी निवास पता 'Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation		THE Single State Married or Others
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार फार्म 60 *धर्म निर्माणक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार फार्म 60 *धर्म निर्माणक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	Am that DOP D D M M 1 1 1 1 addition of Marital Status 64% 2008 1 1 1 1 1 1 1 1 1
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार फार्म 60 *धर्म निर्माणक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	I MEDITAL DOUBLE INTERPRETATION OF THE CONTRACT OF THE CONTRACTOR
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. प्रेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार AADHAAR Form 60 *धर्म *Religion *Qualification Occupation Occupation Size Photo *Uता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *माता का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant *Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टाधार AADHAAR ADHAAR क्षेत्रमार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *माता का नाम *Spouse Name *प्थायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1*Applicant Applicant Applicant Applicant Size Photo *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant Applicant A	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name माता का नाम *Mother's Name जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	* * THE DOD D D M M V V V V V V V V
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अष्टाधार AADHAAR ADHAAR क्षेत्रमार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *माता का नाम *Spouse Name *प्थायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1*Applicant Applicant Applicant Applicant Size Photo *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant Applicant A	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN झाइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	I MALICIA DODIDIDIMINI ILLI ILLI "daliba di Marital Status" I KANT SITISICI ILIANIBI MATTIEULI I MALOUTEIS
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN प्रमणेर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR ADHAAR ADHAAR के 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याच 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN झाइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	MA ICHA DOD D D M M T T T T T TOTAL TABLE THE TOTAL STATES
वोटर ID	वोटर ID Voter ID पासपोर्ट न. Passport No. P	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name DOB D D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name प्रकल Single विवाहित Married अन्य Others	*नाम Name	
वोटर ID	वोटर ID Voter ID पासपोर्ट न. Passport No. P	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name DOB DOM MYYYY *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name Under Id DOB DOM MAY Y Y Y * वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. प्रेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार AADHAAR Form 60 *धर्म *Religion *Qualification Occupation Occupation Size Photo *Uता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *माता का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant *Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN झाइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	Site Itila DOB D M M T T T Tadilita Status
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. प्रेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार AADHAAR Form 60 *धर्म *Religion *Qualification Occupation Occupation Size Photo *Uता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *माता का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant *Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN झाइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. प्रेन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार AADHAAR Form 60 *धर्म *Religion *Qualification Occupation Occupation Size Photo *Uता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *माता का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1*Applicant *Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN प्रमणेर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence AADHAAR ADHAAR ADHAAR के 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याच 'श्रीक्षाणिक योग्यता 'श्रीक याग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श्रीक योग्यता 'श	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN झाइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अगधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	I CARL LAND IN DELICIO INTENTION IN THE CONTRACT OF MARKET CHARLES I HICKOM NOTICE I TELEVICIONI I STATE (1th orc
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार फार्म 60 *धर्म निर्माणक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	Carried Norman Married Description of the Control o
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अगधार फार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	Total rate IV No. 10 IV
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार फार्म 60 *धर्म निर्माणक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	
*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN ड्राइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार फार्म 60 *धर्म निर्माणक योग्यता रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name *जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. प्राइविंग लाइसेंस Driving Licence	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name DOB DOM MYYYY *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name Under Id DOB DOM MOY YOUNG TO THE Place of Birth Risk Categorisation Arrival Status Upper Single विवाहित Married अन्य Others	*नाम Name	
वोटर ID	वोटर ID Voter ID पासपोर्ट न. Passport No. P	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender ि *राष्ट्रीयता Nationality ि भारतीय Indian ि अन्य Others
Voter ID	Voter ID	Customer Id	Customer Id	*नाम Name प्रकल Single विवाहित Married अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender ि *राष्ट्रीयता Nationality ि मारतीय Indian ि अन्य Others
Voter ID	Voter ID	Customer Id	Customer Id	*नाम Name प्रकल Single विवाहित Married अन्य Others	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender ि *राष्ट्रीयता Nationality ि मारतीय Indian ि अन्य Others
Voter ID	Voter ID	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender 📗 पुरूष Male 📗 स्त्री Female 📗 किन्नर Transgender 📗 *राष्ट्रीयता Nationality 📗 भारतीय Indian 📗 अन्य Others
प्रार्म 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता रोजगार Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	फार्म 60 *धर्म *Religion *शैक्षाणिक योग्यता *Qualification Occupation Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Spouse Name *खायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female ि किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality भारतीय Indian अन्य Others* *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न.
Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *ख्यायी निवास पता *Permanent Address Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Form 60 *Religion *Qualification Occupation Size Photo *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *ख्यारी निवास पता *Permanent Address *Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पीन कार्ड PAN PAN PAN PAN Recent
*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता 'Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name 'स्थायी निवास पता *Permanent Address L A N D M A R K Size Photo Size Photo Size Photo Size Photo Size Photo A N D M A R K	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पीन कार्ड पिन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence अाधार AADHAAR Passport
*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address *Aurilian Harring	*पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address *Address *Add	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पिन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR PAN फार्म 60 *ध्रम् *ध्रम् *शैक्षाणिक योग्यता रोजगार Passport
*माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1* Applicant	*माता का नाम *Mother's Name 'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1st Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पिन कार्ड PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR RADHAAR RADHAAR Passport Form 60 *धर्म *शिक्षाणिक योग्यता *रीजगार Occupation Size Photo
'जीवन साथी का नाम 'Spouse Name '*स्थायी निवास पता 'Permanent Address L A N D M A R K Signature / Thumb Impression of 1 Applicant	*जीवन साथी का नाम *Spouse Name *स्थायी निवास पता *Permanent Address *LANDMARK Signature / Thumb Impression of 1" Applicant	Customer Id	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पोन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार कार्म 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता *रोजगार Form 60 *Religion *Qualification Occupation *पिता का नाम *Father's Name *माता का नाम *Father's Name *माता का नाम
*Permanent Address Impression of 1st Applicant Impression of 1st Applicant	*Permanent Address Impression of 1st Applicant L A N D M A R K	Customer Id Place of Birth Risk Categorisation *नाम Name *जन्म तिथि DOB D M M Y Y Y Y *वैवाहिक वर्ग Marital Status एकल Single विवाहित Married अन्य Others *लिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender रगस्त्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. Passport No. PAN हाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार AADHAAR श्रीशाणिक योग्यता एयां पासपोर्ट न. Passport No Occupation *पिता का नाम *Religion "Qualification Occupation Size Photo *Tund का नाम *Mother's Name **गाता का नाम **Mother's Name ** **गाता का नाम **Mother's Name **गात का नाम **Mother's Name ** **Mother's Name **** **Mother's Name ***	Customer Id	*नाम Name	*तिंग Gender पुरूष Male स्त्री Female किन्नर Transgender *राष्ट्रीयता Nationality मारतीय Indian अन्य Others *जातीय श्रेणी Caste category सामान्य General पछड़ी जाति OBC एस सी SC एस टी ST वोटर ID पासपोर्ट न. पासपोर्ट न. पिन कार्ड PAN इाइविंग लाइसेंस Driving Licence आधार *शैक्षाणिक योग्यता तेजनार *Form 60 *धर्म शिक्षाणिक योग्यता पेजनार *Turn का नाम *Father's Name **Int का नाम *Mother's Name *Mother's Name *Mother's Name *Mother's Name **Int का नाम *Mother's Name **Int का नाम **Mother's Name **Mother's Name **Int का नाम **Mother's Name **Mother's

आवेदक-2 Applicant - 2			
 | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | ield | s ar | e Ma | anda | itory |
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	
--	---	--	
--	--	---	
---	---	--	---
---	--	--	
ग्राहक ID]	
 | जन्म
lace o | | _{+h} [|
 | | | | Т
 | Т | | | | |
 | | |
 | | | कि |
 | | Т | | T | |
| Customer Id | + | <u> </u> | |
 | ace o | | u _ | +
 | | + | \pm | +
 | + | \pm | ╁ | $\overline{}$
 | $\overline{}$ | KI | SK C
 | Jace | go | risa
T | LIO
 | <u> </u> | + | + | + | = |
| *नाम Name | | 4 | |
 | | | | ᆛ
 | \perp | | | 丄
 | \downarrow | | |
 | | | \perp
 | \downarrow | \perp | | \perp
 | | | | | |
| *जन्म तिथि DOB D D M M Y | YYY | _] ∗वै• | वाहिक | ह वर्ग
 | Mari | tal S | tatı | us 📗
 | एक | ল Sir | ıgle | _] دِ
 | ੀ | ववा | हित | M
 | arr | ied |
 | अ | न्य | Oth | ers
 | | | | | |
| *लिंग Gender पुरूष Male | स्त्री Fen | nale [| ि वि | केन्नर
 | Trans | sgen | ıder | r 🗀
 | *राष्ट | ोयता N | lati | ona
 | lit | vΓ | | भार
 | तीर | ı In | dia
 | n [| | अन् | य O
 | the | rs | | | |
| | | | |
 | _ | _ | |
 | , | 1 | |
 | | ' | ╡ |
 | | |
 | [| T | |
 | | | | | |
| *जातीय श्रेणी Caste category | सामान्य | Gene | erai |
 | ч | छड़ा | जा। | ति OE
 | 3C_ | एस | सा | SC
 | | | | 64
 | ΙĊ | r S | ı
 | | | | | |
 | | | | | |
| वोटर ID
Voter ID | | प्तपोर्ट
sport I | |
 | | | |
 | | कार्ड | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | | | |
| | ras | Sport | 10. | _
 | ++ | _ | _ | आधा
 | | AN L | _ | \pm
 | _ | \pm | _ | _
 | | _ | =
 | | | | | |
 | Re | 001 | a f | | |
| ड्राइविंग लाइसेंस Driving License | | | |
 | | | A | ADH/
 | | | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | | | |
| फार्म 60 *धूर्म | | * | |
 | योग्यत | т | Т |
 | \Box_{α} | रोज़ग | | Г
 | Т | Т | П | | |
 | | |
 | | | |
 | as | | | | |
| Form 60 *Religion ** | | | *Qua | alifica
 | ation | | \perp |
 | 0 | ccupa | itio | n L
 | _ | _ | _ | _
 | _ | _ | _
 | 므 | | | Si
 | ze | Ph | oto |) | |
| *पिता का नाम
*Father's Name | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | | | |
| *माता का नाम
*Mother's Name | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | | | |
| *जीवन साथी का नाम | $\dashv \dashv$ | | | \pm
 | | + | Н | $\overline{}$
 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | \mp | $\overline{}$
 | \forall | 十 | \forall | \exists
 | 寸 | $\overline{}$ | 寸
 | 一 | | |
 | | | | | |
| *Spouse Name | + | \perp | | +
 | | + | | +
 | ++ | + | + | +
 | + | + | \pm | 4
 | _ | \dashv | _
 | ႕ | | | | |
 | | | | | |
| *Permanent Address | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | Thun
on of | | |
| | | | |
 | | | |
 | | | |
 | L | А | N | D
 | M | Α | R
 | K | | | 2
 | nd Ap | | cant | | |
| CITY | IN | СО | DE |
 | s | Т | Α | ТЕ
 | | T | T | C
 | 0 | U | N | Т
 | R | Υ |
 | М | 0 | В | П
 | Г | Е | | 0 | П |
| मेल का पता | | $\overline{}$ | | \perp
 | | | | | |
 | | \dashv | 十 |
 | | \pm | _ |
 | | |
 | | | |
 | \dashv | \pm | + | + | \forall |
| Mailing Address | Щ | + | \vdash |
 | + | <u> </u> | \perp | \vdash
 | + | \dashv | _ | _
 | 4 | _ | | <u> </u>
 | | |
 | | | Щ | _
 | _ | 4 | _ | + | Щ |
| | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | L | А
 | Ν | DI | M | R | K |
| CITY | IN | СО | DE |
 | S | Т | Α | ТЕ
 | | | | C
 | О | U | N | Т
 | R | Υ |
 | M | 0 | В | 1
 | L | Е | N | 0 | |
| ई मेल आइ डी Email ID | $\overline{}$ | 一一 | | 十
 | | T | H |
 | 亩 | 一 | \dashv | \top
 | \exists | A | re y | ou a
 | Poli | ticall | у Ех
 | pose | d Pe | erson | (PE
 | P) or | relat | ed to | one [| ΥN |
| | ख 🗆 | |
लाख |
 | \vdash | | |
 | $\dashv \dashv$ |
लाख | |
 | | क् | या अ | ाप रा
 | जनीत | कि रूप | संख
 | उजागर | व्यक | ति (पी | ईपी)
 | है या व | हसी र | से संबंध | ति है 🖥 | |
| | Lac | >1- | 2.50 I | Lac
 | | >2.5 | | Lac
 | > | 5 Lac | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | | | |
| | श्न 📗 | | पारिक
ness I |
 | | कृ
Agric | षि | [
 | | निवेशित | |
 | | | कि
Rer | राए
 | | | अ -
 | य
ners | | | | |
 | | | | • • • • • | ••• |
| *Source of Funds Salary Per
 *कूल आय रु. 100 लाख र | ision ட
க | | |
 | 200 र | | | re L
 | _ | /estment
. 200 লা | |
 | ۔
۔ | | |
 | L | | Oti
 | 1013 | Г | |
 | se Sp
500 | | ty
ब्राउप | ₹ | |
| *Net Worth Upto Rs. 100 | | Abo | ve Rs | . 100
 | Lac to | 200 |) Lac | _s L
 | | ove Rs | | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | 00 L | | |
| | जूदा कोः | ई परिव | र्तन नह | हीं
 | | Ŧ | गौजूव | दा में
 | परिवर्त | न स | गी को | वाई
 | सी | नंबर | Г | Т
 | \neg | \neg | Т
 | | Т | | \top
 | | T | 1 | | |
| *CKYC | Existing | No ch | ange |
 | | Fyis | ting | . 1 1
 | | | _ | | |
 | | | |
 | | |
 | | | |
 | | | | 1 1 | |
| | _ | | ange |
 | _ | LXIS | riiig | Upaa
 | ate cha | inge | C | KYC
 | No | | L | | |
 | | |
 | | | |
 | | | | | |
| | | | | A/C
 | RS DI | | | | |
 | | nge
RM - | |
 | | | L) |
 | | |
 | | | |
 | | | | | |
| भाग A PAR | | F | ATC |
 | RS DI
हा Yes | ECL | | TIOI
 | N FOI | RM - | (IN | DIV
 | /ID | UA | |
 | | ंबी | 'PA
 | RT B | | | | |
 | | | | | |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नागि
Are you Citizen of any country other than Ir | क हैं जिसमें | F | ATC |
 | | ECL/ | ARA | TIOI
 | N FOI | | (IN | DIV
 | /ID | UA | | | |
 | | |
 | | ; | |
 | | | | | |
| a. क्या आप भारत के जलावा किसी अन्य देश के नार्गा
Are you Citizen of any country other than In
(dual/multiple) (including Green Card)?
b. क्या आपका जन्म देश भारत के अल | क हैं,जिसमें
dia | ग्रीन कार्ड
देश है? | ATC
भी शामिल |
 | हा Yes | ECL⁄ | ARA | TIO
 | N FOI | RM - | (IN | DIV
 | /ID | UA | |
 | ce | | शहर/
 | 'City_ | | ace of | birth
 | | | | | |
| a. वया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा
Are you Citizen of any country other than In
(dual/multiple) (including Green Card)?
b. क्या आपका जन्म देश भारत के अल
Is your Country of birth is any countr | क हैं,जिसमें
dia
वा कोई
y other th: | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India | FATC
भी शामिल
भ | ल है?
 | हा Yes | ECL/ | ARA | TIO
 | कर निव
देश/ Co
जन्म क | RM -
वास के लि
ountry
न देश/Co | (IN | DIV
 | /ID | UA | |
 | ce | | शहर/
जन्म
 | 'City_
I स्था | न / pl | |
 | | | | धन व | का स्रोत / |
| a. वया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा
Are you Citizen of any country other than In
(dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अल
Is your Country of birth is any country c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य
Are you Tax resident of ANY country/ | क हैं,जिसमें
dia
वा कोई
y other th
i देश के
ies other tl | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निव
han Indi | मी शामिल
भी शामिल
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे | ल है?
 | हा Yes | ECL/ | ARA | TIO
 | ov निव
देश/Co
जन्म क
Source | RIM -
वास के लि
ountry
ग देश/Co
of Wealth_
स निवास | (IN
ए पत
untry | DIV
II / Add
of Bir
 | dress | UA
for Ta | ax Re | siden
 | ceके
क | भीतर | शहर/
जन्म
रा
 | 'City_
I स्थाः
ष्ट्रीयत | FI / pl | ace of | y
 | पहर | ान व | दस्तावे | <u>ज</u> | |
| a. वया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अल
Is your Country of birth is any countr c. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country/I क्या आपण भारत की अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country/I by you have POA or a mandate holde | क हैं,जिसमें
dia
वा कोई
y other th
i देश के
ies other tl | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निव
han Indi | मी शामिल
भी शामिल
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे
भे | ल है?
 | हा Yes | ECL/
ः न | ARA | TIO
 | ov निव
देश/Co
जन्म क
Source | RIM -
वास के लि
ountry
त देश/Co
of Wealth_ | (IN
ए पत
untry | DIV
II / Add
of Bir
 | dress | UA
for Ta | ax Re | siden
 | ce
के
पहच | भीतर | शहर/
जन्म
रा
 | City_
। स्थाः
ष्ट्रीयत | FI / pl | | y
 | पहर | ान र | दस्तावे
ttion I | <u>ज</u> | |
| a. वया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा
Are you Citizen of any country other than In
(dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अल
Is your Country of birth is any countr
c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य
Are you Tax resident of ANY country/I | क हैं,जिसमें
dia
rai कोई
y other th:
देश के
ies other tl
जिसका पत
who has | ग्रीन कार्ड
देश हैं?
an India
कर निद
han Indi
II भारत :
an addr | मी शामिल
के विश्व
वासी हैं
ia?
से बाहर
'ess | ल है?
 | हा Yes | ECL/
ः न | ARA | TIO
 | ov निव
देश/Co
जन्म क
Source | RIM -
वास के लि
ountry
ग देश/Co
of Wealth_
स निवास | (IN
ए पत
untry | DIV
II / Add
of Bir
 | dress | UA
for Ta | ax Re | siden
 | ce
के
पहच | भीतर | शहर/
जन्म
रा
 | 'City_
I स्थाः
ष्ट्रीयत | FI / pl | | y
 | पहर | ान उ | दस्तावे
ttion I | <u>ज</u> | |
| a. वया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any countr car any any array के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country/I any | क हैं,जिसमें
dia
or कोई
y other th:
देश के
ies other th
जिसका पत
who has
टेलीफोन | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निव
han Indi
II भारत :
an addr
नंबर है
dia | मी शामित
भी शामित
भे?
जासी हैं
जासी हैं
असे बाहर
ress | ल है?
ं?
है?
 | हा Yes | ECL/
ः न | ARA | TIO
 | ov निव
देश/Co
जन्म क
Source | RIM -
वास के लि
ountry
ग देश/Co
of Wealth_
स निवास | (IN
ए पत
untry | DIV
II / Add
of Bir
 | dress | UA
for Ta | ax Re | siden
 | ce
के
पहच | भीतर | शहर/
जन्म
रा
 | 'City_
I स्थाः
ष्ट्रीयत | FI / pl | | y
 | पहर | III Titifica | दस्तावे
ation I | <u>ज</u> | |
| a. वया आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा
Are you Citizen of any country other than In
(dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अल
Is your Country of birth is any countr
c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य
Are you Tax resident of ANY country/I | क हैं,जिसमें dia orange of the control ora | ग्रीन कार्ड
an India
कर निव
han Indi
II भारत
an addr
नंबर है
dia | मी शामिल
भी शामिल
भे?
वासी हैं
भो बाहर
'ess | ल है?
?
है?
 | हा Yes | ECL/
ः न | ARA | TIO
 | ov निव
देश/Co
जन्म क
Source | RIM -
वास के लि
ountry
ग देश/Co
of Wealth_
स निवास | (IN
ए पत
untry | DIV
II / Add
of Bir | dress
 | UA
for Ta | ax Re | siden
 | ce
के
पहच | भीतर | शहर/
जन्म
रा | 'City_
I स्थाः
ष्ट्रीयत
 | FI / pl | | y | पहर
 | ाान व
tiffica | दस्तावे
ation I | <u>ज</u> | |
| a. वया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप का जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country. d. bo you have POA or a mandate holde outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता या व Is Your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्त If your answer to any of the above que | क हैं,जिसमें
dia
rai कोई
y other tha
i देश के
ies other th
जिसका पत
who has
टेलीफोन
र हाँ है त | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निव
han Indi
an addr
नांबर है
dia
"YES' | मी शामिल
भी शामिल
भे?
वासी हैं
ia?
से बाहर
ress | ल है?
?
है?
ख भ
fill Par
 | हा Yes | ECL/ | ARA | ATIO
 | कर निव
देश/ Co
जन्म क
Source
कु | RM -
antry_
न देश/Co
of Wealth_
र निवास
untry of | (IN
ए पत
untry
का
Tax | DIV
Π/Add
of Bir
देश
resid
 | dress th_ | for Ta | ax Re | siden
 | ्रके
पहच | भीतर
ान र
ifica | शहर/
जन्म
<u>रा</u>
रांख्य
tion
 | City_
। स्थाः
ष्ट्रीयत्
।
num | न / pi
П/Nat | ionalit | y
कर
Tax
 | पहच
iden | tifica | ition I | তা
Jocum | ient |
| a. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा Are you Citizen of any country other than Is (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अल Is your Country of birth is any countr card of the same of the sa | क हैं,जिसमें dia an कोई y other tha देश के ies other th Government Governme | ग्रीन कार्ड
देश हैं?
an India
कर निव
han Indi
II भारत :
an addr
riav है
dia
ii कृपय
"YES' | मी शामित
भी शामित
भे?
नासी हैं
ia?
से बाहर
ress
।
मा भाग
please | ल है?
?
है?
ख भ
fill Pai | हा Yes
 | ECL/
न | ARA | ्रे
भागावा रिज | कर निव
देश/Co
जन्म क
Source
कर
Co
 | RM - antry | (IN
ए पत
untry
का
Tax | DIV
of Bir
देश
resid | dress
th | of for Ta
 | क्र Re | कर
Fax i | cce
के
पहच
dent
 | भीतर
गन र
ifica | शहर/
जन्म
रा
रांख्य
tion | City_
ा स्थाः
ष्ट्रीयत
T
num | न / pi
 | ionalit; | y
कर
Tax | पहच
iden | के अ | ntion I
 | ज
Pocum | nent
Read |
| a. व्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के अला Is your Country of birth is any country of any any any and that a series of the property of the series of the property of the pr | क हैं,जिसमें dia ा कोई y other th: । देश के ies other th जिसका पत who has टेलीफोन outside In र हाँ है त stions is a | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निव
han India
II भारत व
an addr
नंबर है
dia
"YES'
voily केंद्र
ared my | भी शामिल
भी शामिल
भे शामिल
श्रीवार
ग्लंडा
।
।
। भाग
please | ल है?
ं?
ख भ
fill Pai
पक्ष कर
as pei
 | हा Yes | ECLU न | ARA I No | े
चित्र
विकास
 | कर निव
देश/ Co
जन्म क
Source
कर
Co | RM - ant के लि ountry ा देश / Co of Wealth र निवास untry of | UNU पत
untry
का
Tax | DIV
π/Add
of Bir
देश
resid | th
 | UA
for Ta
y
y | ax Re | कर
हिंदा
विक्रम
 | cce
के
पहच
पहच
परत [ः]
Indi | भीतर
ान र
ifica | शहर/
जन्म
रा
रा
संख्य
tion | City_
। स्थाः
ष्ट्रीयत
T
num
 | न / pi
 | ionalit;
सीआर | कर
Tax | पहच्
iden
नेयमों
ixes (
 | tifica
के अ
CBDT | ानुसार
Г)/Res | ज
Docum
अपनी
serve | nent
रिथति
Bank |
| a. व्या आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा Are you Citizen of any country other than Is (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country of any sure of the property of the same of the property of the same of the property | क हैं,जिसमें dia rai कोई y other th: i देश के ies other th Government outside In r हाँ है त stions is a ने भारत स ave decla | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निव
han India
II भारत व
an addr
नंबर है
dia
"YES'
voily केंद्र
ared my | मी शामित
के?
चारसी हैं
के?
से बाहर
'ess'
।
मा भाग
please f | ल है?
है?
ख भ
fill Pau
यक्ष कर
as per
 | हा Yes | ECLU | ARA I No | <mark>ATIO</mark>
चित्र
चित्र
प्रस्ति प्रस्ति स्थान
 | कर निव
देश/Co
जन्म क
Source
कर
Co | RIM - untry | (IN
untry
का
Tax | DIV
π/Add
of Bir
देश
resid | dress
th
 | UA
for Ta
y
v | ax Re | कर
Fax i
 | ce
के
पहच्च
Irtत [‡]
Indi | भीतर
ान र
ifica | शहर/
जन्म
रा
रांख्य
tion | City_
1 स्थाः
ष्ट्रीयत
T
num
 | न / pi
п/Nat
ber* | ionalit;
सीआर
ofDire | कर
Tax
एस वि | पहच्द
iden
नेयमों
exes (ध
 | के अ
CBD1 | iनुसार
Г)/Res | ज
Oocun
अपनी
erve | nent
रिथति
Bank |
| a. वया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. वया आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. वया आप भारत के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country/I व्या आपके पास पीओए या मैंडेट घारक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्त If your answer to any of the above que. 1. मैं | क हैं,जिसमें dia ावा कोई y other thi i देश के les other th जिसका पत who has हे लीफोन र हाँ है त stions is a ने भारत स ave decla गई जानका अन्य रिपोर्ट | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निद
han India
II भारत :
an addr
oriav है
dia
"YES'
vont केंद्र
ared my
री और मे | मी शामित 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 | ल है?
है?
है?
ख भ
प्रक्ष कर
as per
 | हा Yes | ECLU न | ARA IT No. | <mark>्रिपा</mark>
प्रेमि
प्रसिद्धाः
प्रसिद्धाः
 | कर निव
देश/Co
जन्म क
Source
कर
Co | RIM - | ए पत
untry
का
Tax | DIV
IT / Add
of Birresid
 | dress
th
ency
dig i | UA
for Ta
for Ta
v | ax Re | कर ।
गित्र i
गित्र i
गित्र i
गित्र i
 | | भीतर
नान र
में लाः
हें लाः
ए पूर्ण
oun | शहर/
जन्म
<u>रा</u>
रांख्य
tion
 | City_
। स्थाः
प्र्टीयत्
T
num | न / pl
III/Nat
HTV :
ardc | ionalit;
सीआर
fDire
कोई ' | एस वि
 | पहच्च
t iden
नेयमों
xes (।
uppo | के अ
CBD1 | ानुसार
Γ)/Res
कारी / | ज
अपनी
erve
दस्तावे | Rent
रिथति
Bank
जिनहीं
ntary |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country. d. bo you have POA or a mandate holded outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्त If your answer to any of the above que. 1. मैं — | क हैं,जिसमें dia rai कोई y other th: i देश के ies other tl Gittaga पत v who has controlled in v हाँ है त stions is a ने भारत स ave decla गई जानका अन्य रिफोर्ट t of my K bunt at a | ग्रीन कार्ड
देश है??
an India
कर निर्मा
ज्ञान an addr
नंबर है
dia
नंबर है
पुष्टिं
एरकार केंक्र
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
पुर्टिं
प्
पुर्टिं
प्
प्
प्
प्
प्
प्
प्
प्
प्
प्
प्
प्
प् | भी शामित
भी शामित
भी शामित
श्री वाहर
भी वाहर
।
॥ भागा
please !
॥ भागा
please !
औं देशा प्रत्य
रे द्वारा प्र | ख भ ही। Pau
स्ब भ वरान वि
यांकन/
d belii
 | हा Yes | ECLU
न
बीडीटी
able Fu
प्रभावि
correctorer F | ARA IT No III III III III III III III III III I | ोय रिजा
/CRS ru
/ I cer
nd con
 | कर निव
देश/Co
जन्म के
Source
के
Co | RM - बास के लि unity_ त देश/Co of Wealth र निवास परवी/आई ह ndia as n at the in | ए पत
untry
का
Tax | DIV
of Bir
ed by
श्यास
matic
ave n
 | dress ency //O के अ | UA
for Ta
v
v
में अधि
vern
rनुसार
tateo | क्र Re
क्रिक्ट
mei | कर म
Fax i
the
 | ्रह्म
पुरुच
dent
f Indi
acc
/ ma | भीतर
में ला
ia/Ce
र पूर्ण
oun | शहर/
जन्म
<u>रा</u>
रा एप
entra
है अं
 | City_
। स्थाः
ष्ट्रीयत्
T
num
गेर मैंने
enin
form | न / pl
II/Nat
Ber* | सीआर
ofDire
कोई : | एस विशेष
 | पहच्च
iden
नेयमों
xxes (i
uppo
ment | के अ
CBDI
i जान
prtin | ानुसार
Γ)/Res
कारी /
g doo
t may | ज
अपनी
erve
दस्तावे
ume | स्थिति
Bank
ज नहीं
ntary |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Clitizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country of a wind is your Country of birth is any country of birth is any country. c. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट झाएक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या Is Your address or telephone number यि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्ता If your answer to any of the above que 1. मैं — | क हैं,जिसमें dia ran कोई y other tha i देश के ies other th is who has cellush न outside In v हाँ है द stions is a ने भारत स ave decla गई जानका अन्य रिपोर्ट t of my K buttata अधिकृत कर | ग्रीन कार्ड
देश है??
an India
कर निक्
an India
कर निक्
विदेश
निक्य है
और में
अरिए स्रोत
nowlec
US Rep
ला हूं कि | भी शामिल
भी शामिल
भे श्री वासर
में बाहर
।
॥ भाग please !
द्वीय प्रत्ये
इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड इंड | ख भ है?
है?
ख भ कर
as per
d belii
le accc
 | हा Yes | ECL/
न
नी
बीडीटी
able F/
मर्थन द
प्रभावि
correction | भारती
भारती
ATCA,
स्तावेड
त हो
ect ar | ोय रिज
/CRS ru
/ I cer
nd con
rtable
म के निः
 | कर निव
वैशा/Co
जन्म के
Source
के
Co
Htt सर्वी
Htt सर्वा
Htt सर्व
Htt सर्वा
Htt सर
Htt स
Htt स | RM - untry_ ा देश/Co of Weath र निवास र वीआई ह ndia as n at the in at the in the the that | untry का Tax | DIV IT / Add of Bir देश resid | dress th aiघ i / Go के अ
 | UA
for Ta
for Ta
v
v
v
v | ax Re | कर ।
Fax i
nt of
the | ्रह्म
पहच्च
dent
ही औ
acc
/ ma
 | भीतर
नान र
ifica
v पूर्ण
oun
iteri | शहर/
जन्म
रा
रा
रा
रि औ
है औ | City_
।
स्थाः
ष्ट्रीयत
T
num
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
o | न / pl III/Nat ber* ऐसी g fo | ionalit
सीआर
कोई :
rm a | y | पहर
iden
नेयमों
ixes (i
uppo
ment
 | के अ
CBDT
i जान
tha | ानुसार
Γ)/Res
कारी /
g doo
t may | अपनी
attnia
attnia
attnia
attnia
आधार | स्थिति
Bank
ज नहीं
ntary
पर मेरे |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा Are you Clitizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप मारत के जाना करिश जान के अला Is your Country of birth is any country of any | क हैं,जिसमें dia ावा कोई I देश के ies other thi I देश के ies other thi I अस्म प्रकार I अस्म प्रकार I अस्म है I देश के I अस्म है I अस्म सरक | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निर्देश
तो क्षायर
अप्रकर
राज्यर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षायर
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क्षाय
क
क्षाय
क
क्षाय
क
क्षाय
क
क्षाय
क
क्षाय
क
क
क
क
क
क
क
क
क | भी शामिल
भी शामिल
भे श्री शास्त्र
भी शामिल
।
॥ भाम please !
।
॥ भाम please !
।
इसके ता मूल्य
dge and | ख भ
है?
है?
ख भ
साम Pau
as pei
d belii
le accc
हत बना
वेदेशी र
 | हा Yes | ECL/
न
न
बीडीटी
able FA
प्रभावि
corre
ther F | भारती
ATCA
भारती
ATCA
त हो
ect ai
Repo
धिनिय |
्रे
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राचित्र
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प्राच
प
प्राच
प्र
प्राच
प्राच
प्राच
प
प्राच
प्राच
प्राच
प
प्राच
प
प
प्राच
प
प
प
प | कर निव
देश/ Cc
जन्म क
Source
कर
Co | RM - untry परेशिआई ह स्वित्व के सिंहिं स्वित्व के सिंहें स्वित्व के सिंहें स्वित्व के सिंहें स्वित्व के सिंहें स | untry का Tax anotifi t l ha nerw सान्य रा जा | DIV of Bir देश resid देश resid शैवास matic ave n rise. | aga में
oot v
 | for Ta | ax Re | कर ।
Fax i
nt of
the
I any
 | पहच
पहच
ddent
f Indi
acc
/ ma | भीतर
मों ला
र पूर्ण
oun
iteri | शहर/
जन्म
रा
रांख्य
tion
है औ
t op-
al in | City_
। स्थाः
प्ट्रीयत्
I
num
bo
pv टीः
al bo
div मैंने
enin
form
 | न / pl III/Nat HT/V Grando T ऐसी grando Automatic | ionalit;
सीआर
कोई :
rm a
rm do
sसमें ि | एस विश्
Tax | पहर iden नेयमों xxes (। uppo ment
 | के अ
CBDT
i जान
prtin
tha
u मान
आधी | ानुसार
Г)/Res
कारी /
g doo
t may
दंडों के | अपनी
erve
दस्तावे
ume
affect
आधार
को विव | स्थिति
Bank
Iज नहीं
ntary
ct the |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Clitizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country of a wind is your Country of birth is any country of birth is any country. c. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट झाएक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या Is Your address or telephone number यि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्ता If your answer to any of the above que 1. मैं — | क हैं,जिसमें dia ावा कोई yother tha i देश के ies other th is is other is | ग्रीन कार्ड
देश है?
an India
कर निर्देश
तो का addr
तो क्षार
क्षार
अर संज्ञा
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क्षार
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क | मी शामित
ते ।?
ना शामित हैं
ते ।?
ना माम
please !
प्रिय प्रत्ये
का मूल्य
dge am
ortabl
ortabl
ortabl
ortabl
ortabl | ख भ
है?
है?
है?
ख भ
स्वाम Pau
प्रथस कर
as pei
d belii
le acco
हत बना
वेदेशी र
 | हा Yes | ECL/
न न
 | भारती ATCA स्तावेड त हो ect ar Repo | ्रे
प्राप्त रिजा
प्राप्त प्राप्त प्राप्त
प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त
प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्र प्र प्र प्र प्र | कर निव
देश/Cc
जन्म क
Source
क
Co
 | RM - untry ा चेश/Co of Wealth र निवास स्वीआई ह तिवास तावास के ति | untry का Tax givi इ forn t I ha nerw रा जा | of Bir resid | aiध मं y Goo ot v | of for Tale of the state of th
 | ax Re | कर ।
Fax i
nt of
the
I any
प्रसार :
रएस | एहच
पहच
dent
ही औ
acc
/ ma
आवार
और , | भीतर
गान र
ififica
में लाः
v पूर्ण
oun
nteri
Hillय रि
/ या :
 | शहर/
जन्म
रा
रांख्य
tion
है अं
t op-
al in
स्थिति | City_
। स्थाः
ष्ट्रीयत्
।
num
गैर मैंने
enin
form
और /
तरह व | न / pl
III/Nat
Bly :
ardc
ardc
var of
var of
for ar | tflआर
fDire
कोई :
on/do
 | एस विश्व | पहच्
i iden
नेयमों
xxes (i
uppo
ment
त अन्स्था के | के अ
CBDT
i जान
prtin
tha
urin
आधी
lines | ानुसार
Г)/Res
कारी /
g doc
t may
दंडों के
न बैंक
; issu | ज
अपनी
eerve
दस्तावे
आधार
को विव | स्थिति
Bank
oज नहीं
ntary
पर मेरे
परण की
 |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश मारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप मारत के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country. d. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट घारक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यिद उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्त If your answer to any of the above que that of India (RBI) in this regard. 1. मैं — | क हैं,जिसमें dia ावा कोई y other th: | ग्रीन कार्ड
देश है?
Ann India
कर निन
an addr
नंबर है
तो कृपय
एक्टार
केंग्रे
पर खाते
पर खाते
nowlec
US Rep
US Rep
कि क्विट
केंग्रे
पर खाते
वा क्विट
पर खाते
वा कार्य
पर खाते
वा कार्य
पर खाते
वा कार्य
पर खाते
वा कार्य
केंग्रे
पर खाते
वा कार्य
केंग्रे
पर खाते
वा कार्य
केंग्रे
पर खाते
वा कार्य
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंग्रे
केंं
केंग्रे
कें
केंग्रे
कें
कें
कें
कें
कें
कें
कें
कें
कें
के | मी शामित
भी शामित
भी शामित
भी बादरी
से बाहर
रहे हारा प्र
रहे हारा प्र
रहे हारा प्र
रहे हारा प्र
रहे हारा प्र
रहे हारा प्र
ने का मूल्य
dge and
ortabl
हसके का
तार्यों के बाहर
मार्यों के बाहर
मार्यां के बाहर
मार्यां के बाहर
मार्यां के बाहर
मार्यां के बाहर
मार्यां के बाहर | ख भ
संfill Pal
प्यथ्य कर
as pel
did bel
de accc
हत बना
वेदेशी र
tthoriz
ntial st
 | हा Yes | ECL/
न न न न न न न न न न न न न न न न न न न | भारती
ATCA
ATCA
त हो
ect ai
Repo
धिनिय
iन अधि
er th
othe | ोय रिज
/CRS ru
/ I cer
nd con
nrtable
एम के नि |
कर नित्र
देश/Co
जन्म के
Source
के
Co
मेरे सर्वीद
पंत्र सर्वीद
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्रमाणिति
प्र | RM - बास के लि untry न देश/Co of Wealth, र निवास परवीआई ह विवास समझान अ at the in and tha nt or or th सरकार द्वा ए और सा ए और सा | ए पत
untry
का
Tax
diforn
t I ha
nerw
जाान्य f
here | of Bir
देश
resid
ed by
श्वास
matic
ave n
vise.
री दिश
रोपोर्टि
ne Ta
ein, tl | बंध में
ency
/ Go
के अ
on si
ot v
 | for Ts
for Ts
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
tate
v
vith
f
नकों र
cct, I
s
ank
with | ax Re | कर ।
Fax i
गेत भ
nt of
the
I any
स्रार :
vy Ha
 | पहचच
पहचच
पहचच
पहचच
प्राप्त
शीर
/ ma
और
!ligat | भीतर
मिं ला
ia/Ce
v पूर्ण
oun
iteri
ंसीय रि
/ या :
o rep
ions | शहर/
जन्म
रा
रा
रेख्य
है औ
है औ
है कि
का
बा
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का
का | City_
I स्थाः
प्रियाः
I
num
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
overline
ove | न / pl
III/Nat
HT/Nat
HT/Nat
FRITO TO
WITTER TO T | सीआर
ofDire
कोई '
orm a
on/do
sसमें रि
ई अन्य
ond th | एस विश्व
मि मह
nd s
ocui | पहच्च
iden
नेयमों
xxes (i
uppo
ment
तेत अन्स्था के
uidel
pect
 | के अ
CBDT
i जान
tha
u मान
आधी
iines | ानुसार
Г)/Res
कारी /
ह doc
t may
दंडों के
न बैंक
; issu | ज
अपनी
aerve
दस्तावे
ume
affec
आधार
को विव
ed b' | स्थिति
Bank
Jon नहीं
ntary
ct the
पर मेरे
परण की |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप का जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country. d. boyou have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्त If your answer to any of the above que. 1. में ——————————————————————————————————— | क हैं,जिसमें dia rai कोई y other this i देश के res other th Government outside In v हाँ है ने भारत स ave decla गई जानका अन्य रिपोर्ट t of my Ki bunt at a अधिकृत कर ding upo tral Boar ix Compli | ग्रीन कार्ड देश है? तेश है? तेश है? तेश है? तेश हैं तेश है तेश | मी शामित
भा शामित
भा शामित
भा शामित
भा भाग
भा भा भा
भा भा भा भा भा
भा भा भा भा
भा भा भा भा
भा भा भा भा भा
भा भा भा भा भा भा
भा भा भा भा भा भा
भा भा भा भा भा भा भा भा भा भा
भा भा भ | स्व भ
स्व भ
स्व भ
संशि Pau
याकन /
d beli-
le accu-
हत बना
चेदेशी र
titial st
 | हा Yes | हिटार
च
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक
विशेषिक | भारती के स्तावेष्ट्र स्तावेष् | ोय रिज
/CRS ru
/ I cer
nd con
rtable
।म के निः
देशिन pro | कर निव
देश/Co
जन्म के
Source
के
Co
http://www.chill.
httifytha
accour
urif और
truspectal
ment A
Standa
 | RM - बास के लि unutry न देश/Co of Wealth र निवास र निवास सरवीआई ह at the in and tha at to roth सरकार हा ए और सा in ulated t | ए पत
untry
का
Tax
otifi
गौर वि
aerw
जान्य f
com
here
s to o | DIV of Bir देश resid श्वास matic ave n n/ise. री दिश रेपोर्टिः ne Ta ein, tl | बंध में
ency
/ Go
के अ
on si
ot v | UA for Ta for T | क्र
Re
क्रिक्ट
मिस्टि
mel
जिल्ला
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्थिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यि
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यि
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति
स्यिति | कर ।
Fax i
fax i
the
dany
gent :
es n
y ha | एडच्च
पडच्च
ident
iTरतः
iIndi
acco
/ ma
we t
ligat
ilara | भीतर
मिं ला
oun
ateri
सीय ि
याः
(याः
e tho
ore
gions
 | शहर/
जन्म
रा
रा
रा
रेख्य
है औं
हे op-
al in
veal in
sereu
oort
sas | City_
I स्थाः
प्रियाः
I num
poych
al bo
art ह व
unde
the
per the
men | त / pl
III/Nat
Hilly :
ardo
ardo
/ या र
शि को
r ar
deta
the | सीआर
ofDire
कोई :
कार्य नि
क्रममें ि
इं अन्य
ad th
hills in
 | y | पहच्च
iden
नेयमों
xxes (i
uppo
ment
तेत अन्य
स्था के
uidel
pect | के अ
CBDI
i जान
ortin
tha
मान
आधी
lines
of m | ानुसार
r)/Res
कारी /
g doc
t may
च बंक
i issu
ny acc
ttalAg | ज
अपनी
erve
दस्तावे
ume
affect
को विव
ed b'
ount
green | स्थिति
Bank
ज नहीं
ntary
पर मेरे
पर पर मेरे
(s) as
nents
 |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप का जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य Are you Tax resident of ANY country. d. boyou have POA or a mandate holde outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी आन का उत्त If your answer to any of the above que 1. मैं — | क हैं,जिसमें dia rai कोई y other this i देश के ies other th Government outside In v हाँ है ने भारत स ave decla गई जानका अन्य रिपोर्ट t of my Ki bunt at a अधिकृत कर i अन्य सरक adding upo tral Boar ix Compli | ग्रीन कार्ड देश है? an India कर निव
han India कर निव
han India ग्रामारत न
नंबर है dia ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रिक्
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेम्स्ड
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रि
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस
ग्रेस | भी शामित
भी शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शाम
शामित
शाम
शामित
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम | स्त है?
है?
है?
है?
स्त्र भर्म
बंदान वि
diple
accurates
हत बना
वेदेशी र
titial st | हा Yes
 | ECL/ विशेषिक | भारती ATCA स्तावेष्ट स्वावेष्ट स्तावेष्ट स्ता | ोय रिज
/CRS ru
/ I cer
nd con
rtable
।म के नि
चित्रियम ए
cere rerite
overn
orting | कर निव
देश/Co
जन्म के
Source
के
Co
Philipped
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वीय
से सर्वाय
से सर्वाय
स्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
स्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
स्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से सर्वाय
से स्वाय
स्वाय
स्वाय
से स्वाय
से स्वाय
स
से स्वाय
स
से स्वाय
स
से स्वाय
स
स
स
स
स
स
स
स
स
स | RM - बास के लि unntry न देश/Co of Wealth र निवास र निवास त्रवीआई ह विकास सम ज्ञान के विस्ति सरकार हा प्र और साग sultated t gencies rds (CR: | untry का Tax april 1 वि form t I ha nerw t om here s to o
 | DIV of Bir देश resid श्वास matic ave n rise. री दिश रेपोर्टिः ne Ta ein, tl | agu र Good of white Epoly vor an artical articles are the Epoly vor an articles are the Epoly vor an articles are articles articles are articles articles are articles articles are articles | UA for Ta for Ta y y fi अधि vern figure tate outh fi ank with ny ot na हो | ax Re
क्रिक्ट्रिस | कर ।
Fax i
Tax i
the
d any
es m
y ha
e ob
sim
 | एडच्च
चुडच्च
इंlndi
ही औ
acc
/ ma
अौर
!
sade
tilgat
ilar a
देनों व | भीतर
मान र
मंगिदक
पर पूर्ण
oun
tteri
Hilu f
/ या:
e the
ore
ions
arran
के भीत | शहर/
जन्म
चा स्थान
है अं
है अं
हे इसी र
ereu
port;
as nger
r फ़्रा
 | City_
I स्थाः
I num
overline
it मैंने
enin
form
और /
तरह व
unde
the
per i | त / pl
 III/Nat
 Ber*
 Representation of the control of the | सीआर
fDire
कोई
कार्यमें रि
ई अन्य
d th
ails in
inter- | एस विश्व
कर Tax
एस विश्व
भी मह
nd s
ocul
auda
e g
ocul
res
- Go | पहच्च
iden
नेयमों
exes (()
uppo
ment
da अन्स्था के
uidel
pect
vern
 | के अ
CBDI
i जान
tha
u मान
आधी
lines
of m
mer | मुसार
r)/Res
कारी /
g doc
दंडों के
न बैंक
; issu
ny acc
ntalAg | ज
अपनी
eerve
दस्तावे
आधार
को विव
ed b
ount
green | स्थिति
Bank
Jon नहीं
Intary
et the
पर मेरे
Ivru की
(s) as
nents |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप का जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य त्रेम अन्य अप नार्म के अलावा किसी आन्य त्रेम अप का अलावा किसी आन्य त्रेम अप नार्म के अलावा किसी आन्य त्रेम अप का अप क | क हैं,जिसमें dia ran कोई y other that i देश के ies other that is outside In t हाँ है c होएगेन i who has c होएगेन i भारत स ave decla u i जन्य सरक acknowle ding upo tral boar i x Compli रा हस्ताक्षारि रा हस्ताक्षारि eclare, d entary evie | ग्रीन कार्ड देश है? an India कर निवं कर निवं को का India ता भारत । त्रिक्ष के भारत के लिए अंदि मे त्रिक्ष के लिए अंदि मे ति का प्रिक्ष के लिए अंदि मे ति का जानका ता व्रिक्ष के ति जानका ता जानका | मी शामित
श्री शामित
श्री शामित
श्री शामित
श्री श्री शामित
श्री श्री प्रत्य
श्री प्रत्य
श्री प्रत्य
श्री प्रत्य
श्री प्रत्य
श्री प्रत्य
श्री श्री प्रत्य
श्री श्री प्रत्य
श्री श्री श्री श्री
श्री श्री श्री श्री श्री
श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री
श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री | ख भ है?
ख भ हों।। Pai
ग्रह्म कर
as pei
विदेशी र
thorist
thorist
crcA) a
श्रम्भार्थिक
प्राप्ति के | हा Yes
 | BCL/ बीडीटी बीडीटी प्रभावनिक्स अक्षुपाल as p nd/or or oth nmon प्रदान sin 30 f any of | भारती ATCA स्तावेष् त हो ect ai a sect ai re si le er ti | ोय रिज़
/CRS ru
/ Leen
nrtable
म के निः
ene pro
er crite
sovern
grit दस्ता | कर निर्मे देशा CG जन्म के Source कर टिंठ टिंज टेंग टिंज जन के Source कर टिंठ टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग
 | RM - untry ा चेश/Co of Wealth ह निवास untry of really to general the that the tha | untry का Tax ggr va about 11 t l ha t l ha t com here s to (s) an ig प्रम | हिशा
विशा
विशा
श्वास
matic
ave n
rise.
शे दिश्
रेपोर्टि
ne Tat
comp
nd/o | dress ency esth ency est v git v y Go के अ or u nife ency r ar v or ar ar v or ar | for Ta
for Ta
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y | र
सत्
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्रिक्ट
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क्
क् | कर ।
Fax i
Fax i
the
other
the
dany
with
es m
yell
any
sim
sim
(30 f | पहच्च
पहच्च
पहच्च
Indi
acc
/ ma
silar
act
illigat
ilar
act
illigat | भीतर
मोतर
में ला
गंब/Ce
पूर्ण
outri
सीय गि
सीय
गं
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रिय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रिय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रिय
श्रीय
श्रीय
श्रिय
श्रीय
श्रीय
श्री
श्रीय
श्रीय
श्रिय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रि
श्रीय
श्रीय
श्रीय
श्रिय
श्रीय
श्रिय
श्रि
श्री
श्रि
श्री
श्रिय
श्रि
श्री
श्रि
श्रि
श्री
श्रि
श्रि
श्
श्रि
श्रि
श्र
श्रि
श्र
श्र
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श्
श् | राहर/
जन्म
रारंड्य
है अं
top
alin
स्थिति
हसी र
ereu
oort
; as
nger
n pr | City_
प्रशास्त्रीयत्
प्राप्तामा
काएटीर
काएटीर
कारह व
ande
the
per the
men
ise a | त / pi
II/Nat
RHV ः
ardc
/ या ः
गि को
r ardc
deta
the
ts.
हो प्रव
 | tflआर
ofDire
कोई :
on/do
satification
ad the
hills in
inter- | एस विशेष
कर्म
एस विशेष
श्री मह
निर्धारि
व्यव
श्री res
- Go | महर्द्ध iden नेयमों र्मे (प्रकार) प्रकार (प्रकार) प्रकार के स्वाप्त अन्य स्वाप्त | के अ
CBDI
i जान
tha
tha
u मान
आधी
lines
of m
er
c कर
t op | ानुसार
(T)/Res
कारी /
g doc
t may
दंडों के
न बैंक
; issu
ny acc
sttalAg | ज
अपनी
erve
दस्तावे
आधार
को विव
ed b
ount
freen | स्थिति
Bank
us नहीं
ntary
ct the
पर मेरे
प्र पर
मेरे
stonents
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance
finance |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप का स्था भी शोए या मैंडेट झाएक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा अप सारत के अला Is your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्ता If your answer to any of the above que 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि में घोषित को है I certify that I of India (RI) in this regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी छिपाया है जिससे यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते / evidence provided by me is to the bes assessment/categorization of the account के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी य रिपोर्ट करनी पड़ सकती है I understand, Government/RBI in the matter, deper per the prescribed format to the Cen (IGA) in respect of Foreign Accounts Ta हो I understand with में प्रदान की गई और मेरे हा हूं I undertake the responsibility to c signed by me as well as in the docume 5. इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटर | क हैं,जिसमें dia ran कोई y other that i देश के ies other that i देश के ies other that i देश के ies other that is | ग्रीन कार्ड देश है? an India कर निरं केश ति स्वार्थ का अर्थ का अर्थ केश ति स्वार्थ केश ति स्वार्य केश ति स्वार्थ | मी शामित
ते !?
ना शामित हैं
ते शे बाहर
से बाहर
होया प्रत्य
उस्ते प्रत्य
उसके ता मान्य
doctable
for an मूल्य
doctable
for an au
esiden
rect Ta
ta
(FAT
स्रो शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शामित
शाम
शामित
शाम
शामित
शामित
शामित
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम
शाम | स्व भ है?
रख भ है?
रख भ हिंगा Pai
ग्रिस कर as pei
वेदेशी र
d belii
वेदेशी र
thoriz
thoriz
trial st
exes (((
rVA-)) a
value of the
exertion of the | हा Yes | ECL/
बीडीटी
बीडीटी
प्रमाधिक
द्वार
अनुपाल
as p
nd/or r oth
monon
u प्रदान
nin 30
f any o
भविष्य | भारती ATCA भारती के ATCA स्तावेख त हो ect au Repo धिनिय कि परिकास कि परिकास कि परिकास के प्रिकास के प्राणित के प्रिकास | ोय रिज़
 All Read
 All R | कर निर्मे देशा CG जन्म के Source कर दिले के Wiles in In मेरे सर्वोचे के स्वाप्त के अपार के स्वाप्त | RM - जास के लि जाम प्रेंग / Co of Wealth, the r स्वाम जान अ तम जान अ तम जान अ तम जान अ तम जान अ of the co of the | untry का Tax applied to the form the | of Birresid हेश सं सं ed by श्वास matic ave n rise. श्री दिश्रहेणेटिं ee Ta ein, tl comply ind/o | dress ency estimates assume that the second of the second | of the state of t | र सल्
जे अनु
शिक्षा
के अनु
शिक्षा
के अनु
शिक्षा
के अनु
शिक्षा
के अनु
के अनु
के अनु
के अनु
के पर
के पर
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क
क | कर ।
Fax i
वित भ
nt of
the
dany
street
y ha
e ob
sim
(30 f
e) infa | पहच्च
के
पहच्च
पहच्च
पारतः
शितवीं
शितवीं
शितवीं
शितवीं
शितवीं
शितवीं
शितवीं
शितवीं
शितवीं
शितवीं | भीतर
मोतर
में लाग
में लाग
पर पूर्ण
outri
Hall मां
Hall में
Hall मे
Hall में
Hall में
Hall में
Hall मे
Hall मे
Hall मे
Hall मे
Ha | शहर/
जन्म
रा रंख्य
है अं
है अं
हे का का का का का का का
हि का का का का का का का
हि का का का का का का का
हि का का का का का का का
हि का का का का का का का
हि का का का का का का का का
हि का का
हि का | City_ा स्थान
एटीय
प्रमान
num
हिएती
और /
तरह ब
unde
the
per f
men
ise व
covid | न / pl II/Nat RHV ः ardc g fo natio / या ः हो को r ar deta the ts. हो प्रव | tflआर
fDire
कोई :
कोई अन्य
d th
hails in
inter-
oc कर
n the | एस विश्व
कर्म
एस विश्व
भी मह
nd s
occur
ने धाँ व्यव
ne g
n res
- Go | नेयमों
नेयमों
र्राट्ठ (I
प्राप्ति अन्य
प्राप्ति अन्य
स्राप्ति अन्य
स्रापि अन्य
स्रापि अन्य
स्रापि अन्य
स्राप्ति अन्य
स्रापि अन्य
स्रापि अन्य
स्राप्ति अन्य
स्राप्ति अन्य | के अ
CBDI
i जान
prtin
tha
u मान
आधी
lines
of m
mer | ानुसार
T)/Res
कारी /
g doc
t may
दंडों के
न बैंक
; issu
ny acc
suntalAg
ening | अपनी erve दस्तावे sume affect ount green | स्थिति
Bank
Iज नहीं
ntary
tt the
y the
(s) as
nents
री लेता
n and |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. d. bo you have POA or a mandate holde outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता या Is Your address or telephone number यि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का जत्त If your answer to any of the above que 1. मैं — | क हैं,जिसमें dia ran कोई y other that can shall be reconstructed by the shall be reconstructed | ग्रीन कार्ड देश है? an India कर निव का an addr नंबर है तो कृपय राहित है कि प्रिक्त कर विद्रास का अर्थ है कि कुपय राहित है कि विद्रास का कि कि कि का सिक्त है कि का सिक्त | मी शामित
ते ।?
ना शामित हैं
ने शे बाहर
ने से से बाहर
ने से बाहर
ने से | ख भ
ति है?
है ?
है ?
है ?
है ?
है ?
है ?
है ? | हा Yes हा Ye | ECLV
चित्र चित्र | भारती ATCA स्तावेष्ट त हो ect ai Report for the day of days certifi में मुझे me n
 | ्रेगां
चे सिक्य
चे सिक्य
चे सिक्य
चे सिक्य
चे सिक्य
चे सिक्य
चे सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य
सिक्य | कर निर्मे देश/ Cc जन्म क Source कर्क टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टेंग टिंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टे | RM - जास के लि ountry ा देश / Co of Wealth, र निवास सरवीआई ह ndia as n at the in and tha so of in ulated t ugencies rds (CR: ** ** ** ** ** ** ** ** ** | untry का Tax give a formation tilha erw ve on formation form formation form form form form form form form form
 | of Birresid देश resid श्वास सं सं स्वर्थ by श्वास matic complete a complete compl | बंध में
ency
/ Go
के अ
on so
ot v
मानिवें
म मान
श्र A
he E
poly v
or ar
na ग ल
polace
i average | for Ta
for Ta
y
y
में में अधि
vern
नुसार
tateo
vithl
देशों के
aank
with
ny ot
hony ot
hony ap | म्पूरि
जिस्सारिक
अनु
तीआ
Rule
maa
the
her
the | कर ।
Fax i
वित भ
nt of
the
they
survey
has e ob
sim
(30 f
e infi
 | पहच्च
के
पहच्च
पहच्च
पारतः
ही औ
ही औ
शिक्ष
(made
ve t
ligat
ilar a
देनों ह | भीतर
मीतर
में ला
ia/Ce
turi
our
iteri
et the
ore
ions
arrai
atio | शहर/
जन्म
पा एफ
है औं
है औं
हसी ह
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
 | City_ । स्थान
प्रियास
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमा | न / pl
न / pl
न / pl
न / pl
सीए ः
ऐसी
g fo
onatio
/ या ः
ठी को
r ar
deta
the
ts.
हो प्रव
led i | सीआर
ofDire
कोई :
कोई अन्य
of th
ails in
inter-
oc कर
n the | एस वि
एस वि
श्रिक प्रमानिक
भी मह
nd socul
। व्यव
। व्य
। व्यव
। व
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्य | पहच्च
iden
नेयमों
रिक्स
प्राक्त
अन्य
प्राक्ति
अन्य
प्राक्ति
अन्य
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति | के अ
GBDI
i जान
prtin
tha
urines
of m
mer
e कर्र
wow | ानुसार film I f | ज
अपनी
available
with
aume
affect
bis
ount
green
diright | स्थिति
Bank
Iज
नहीं
ntary
to the
(s) as
nents
री लेत
n and |
| a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्गा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप का स्था भी शोए या मैंडेट झाएक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा अप सारत के अला Is your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्ता If your answer to any of the above que 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि में घोषित को है I certify that I of India (RI) in this regard. 2. मैं प्रमाणित करता हूं कि खाता खोलने के फॉर्म में दी छिपाया है जिससे यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते / evidence provided by me is to the bes assessment/categorization of the account के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी य रिपोर्ट करनी पड़ सकती है I understand, Government/RBI in the matter, deper per the prescribed format to the Cen (IGA) in respect of Foreign Accounts Ta हो I understand with में प्रदान की गई और मेरे हा हूं I undertake the responsibility to c signed by me as well as in the docume 5. इस बात से भी सहमत हूं कि मेरे आवेदन और कैपिटर | क हैं, जिसमें dia ा कोई (y other this of the souther the season the resouther the season the se | ग्रीन कार्ड देश है? त्रीन कार्ड देश है? त्रिका India त्रा मारत के कर नितं त्रा मारत के कार नितं त्रा मारत के के लिए के कि लिए के कि लिए के लिए लिए के लिए के लिए के लिए लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के लिए के ल | मी शामित । १२ वासि । १३ व | स्व भी श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्र | हा Yes हा Ye | ECLV
विशेषिक विशेषिक विशेषक विष्ठ विशेषक विष्ठ विशेषक विष | भारती ATCA. स्तावेष्त हो । ect ai । Repool before the other of Repo for vi days: certifi में मुझे me n | ोय रिजन
/CRS ru
/ I cer
nd con
orrtable
professores
recrite
sovern
orting
i say o
o
o o or
permi
 | कर निर्मे देश/ Cc जन्म क Source कर्क टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टेंग टिंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टेंग टे | RM - जास के लि ountry ा देश / Co of Wealth, र निवास सरवीआई ह ndia as n at the in and tha so of in ulated t ugencies rds (CR: ** ** ** ** ** ** ** ** ** | untry का Tax give a formation tilha erw ve on formation form formation form form form form form form form form | of Birresid देश resid श्वास सं सं स्वर्थ by श्वास matic complete a complete compl | बंध में
ency
/ Go
के अ
on so
ot v
मानिवें
म मान
श्र A
he E
poly v
or ar
na ग ल
polace
i average
 | for Ta
for Ta
y
y
में में अधि
vern
नुसार
tateo
vithl
देशों के
aank
with
ny ot
hony ot
hony ap | म्पूरि
जिस्सारिक
अनु
तीआ
Rule
maa
the
her
the | कर ।
Fax i
वित भ
nt of
the
they
survey
has e ob
sim
(30 f
e infi
 | पहच्च
के
पहच्च
पहच्च
पारतः
ही औ
ही औ
शिक्ष
(made
ve t
ligat
ilar a
देनों ह | भीतर
मीतर
में ला
ia/Ce
turi
our
iteri
et the
ore
ions
arrai
atio | शहर/
जन्म
पा एफ
है औं
है औं
हसी ह
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम्हा
हिम्हा
हिम्हा
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम
हिम | City_ ।
स्थान
प्रियास
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमान
प्रमा | न / pl
न / pl
न / pl
न / pl
सीए ः
ऐसी
g fo
onatio
/ या ः
ठी को
r ar
deta
the
ts.
हो प्रव
led i | सीआर
ofDire
कोई :
कोई अन्य
of th
ails in
inter-
oc कर
n the | एस वि
एस वि
श्रिक प्रमानिक
भी मह
nd socul
। व्यव
। व्य
। व्यव
। व
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्यव
। व्य | पहच्च
iden
नेयमों
रिक्स
प्राक्त
अन्य
प्राक्ति
अन्य
प्राक्ति
अन्य
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति
प्राक्ति | के अ
GBDI
i जान
prtin
tha
urines
of m
mer
e कर्र
wow | ानुसार film I f | ज
अपनी
available
with
aume
affect
bis
ount
green
diright | स्थिति
Bank
Iज नहीं
ntary
to the
(s) as
nents
री लेत
n and
 |
a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आपका जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य तेम you Tax resident of ANY country. d. क्या आपके पास पीओए या मैंडेट धारक है boyou have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाइर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यिद उपरोक्त किसी आन का उत्त If your answer to any of the above que 1. मैं ———————————————————————————————————	क हैं, जिसमें dia rai कोई , y other th: y outside In y हां है c stions is a re h भारत स ave decla riई जानका अन्य रिपोर्ट t of my K bount at a अधिकृत कर y outside In y outside In y outside In y हां जानका अन्य रिपोर्ट t of my K bount at a acknowle ding upo tral Boar ix Compli y eleration y outside In	ग्रीन कार्ड देश है? ति कार्यावाक कर निव्का India कर निवंद है ति का India कर निवंद है ति क्षेत्र निवंद	मी शामित हैं । ? वासी हैं कि शामित हैं ।	ख भ है? ख भ हों।! Pau यक्ष कर as pel d belii e acco हत बना वेदेशी र University itial states ((ITCA) a liv—साह ecertic ed by itial fac ake ap within or viitia	हा Yes हा Ye	ECL/ बिकारी के बिकारी के	भारती ATCA स्तावेज त हो ect ai age of the other of Report of days certified in the certification of the certifica	ोय रिज़ /CRS ru / I cer and con ortable एक के नि- का के नि- का कर्म का क्रा कर्म का कर्म का कर्म का कर्म का कर्म का क्रा कर्म का क्रा कर्म का कर्म का कर्म का क्रा का कर्म का कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म	कर निव देश Co जन्म के Source के Co प्राप्त के Source के Co प्राप्त के Source के Co प्राप्त के Source के Co Visions ria stip ment A Standa aे जी साक्ष change become in futu ssible t	RM - बास के लि uuntry न देश/Co of Wealth र निवास र निवास सरवीआई ह तम ज्ञान ४ उत्तर वर्ष सम्मान ४ उत्तर पर और साम सरकार द्वा पर और साम ह साम	untry का Tax and the last of the last o	of Bir resid हेश resid श्वास matic navise. शि दिश्	ency day i day on si of on si of variation and the E ply variation and the E ply variation and the ency place of the ency reg	UA for Ts y fr में अधि fr vern fryttateo for ts sank fr in the free in fre	र Re प्रसूचि मसूचि mel meldin nelc state her the the oplic ions	कार भ मिक्स i मिक्स i मि मिक्स i मिक्स i मिक्स i मिक् i मिक i मि i मि i मिक i मि i मि i मि ो मि i मि i मि i मि i मि	पहच्च पहच्च पहच्च पहच्च पहच्च प्राप्त ः श्रीय ः श्री ः श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श्	भीतर मोतर में लाः ए पूर्ण oun: ateri सीय रि था: या: या: विकास को भीत atio	शहर/ जन्म रा ख्या संस्थात है औं हे सी त् हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी	City_ा स्थान प्रहीयत ग num हिंदी bo शेर / शेर शेर / शेर शेर / शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर	त / pi	thlant form and the first and	एस ि ectTa भी मह nd s ocui नेधीरि व्यव e g or res oci ने या nce othe	महत्त्व iden नियमों mxes (i uppo ment त अन्य स्था के uidel pect vern उचित Bank	के अ CBDT i जान prtin i tha i मान आधी lines of m mer c कर t op	ानुसार T)/Res कारी / g doc t may न बैंक ; issu my acc ntalAg ening ening unit for	ज अपनी erve दस्तावे आधार को विव ed b ount freen ने के अ with	स्थिति Bank ज नहीं ntary tt the पर मेरे प्र केत प्र केत श्र केत n and मधिकार in its
a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप का जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य तेम एक U Tax resident of ANY country. d. क्या आप के पास पीओए या मैंडेट घारक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भारन का उत्त If your answer to any of the above que 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैं घोषित की है I	क हैं, जिसमें dia rai कोई y other the i देश के ies other the ir who has contailed in ir संग्रित स ave decla ir संग्रित स ave decla ir संग्रित स ave decla ir संग्रित कर i अन्य सरक acknowle ding upo tral Boar ix Compli ix हस्ताक्षरि eclare, d intary evi ix स्माल फाइ to disclo pons of my lated/ree iv सहमत upon me	ग्रीन कार्ड देश है? का India कर निवं कर निवं केरा निवं केरा निवं केरा निवं केरा निवं प्रकार केंद्र एकार केंद्र केंद	मी शामिल श्री श्री शामिल श्री श्री शामिल श्री श्री श्री शामिल श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री	स्थ भ स्था भ मंति। Par स्था में स्था में स्य में स्था में स्थ में स्य में से से से से से से से से से से से से से	हा Yes	ECL/	भारतीय स्तावेच तर हो । day: certifi में मुझे me n । ced p । call tition n :ed p :ed	ोय रिजा /CRS ru / I cer on table ।म के निः ना के निः ना का प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त श्रम् के निः ना का प्राप्त स्वाप्त श्रम् के निः ना का प्राप्त स्वाप्त श्रम् के निः ना का प्राप्त श्रम् के निः ना के निः नि के नि के नि नि के नि के नि के नि के नि नि के नि के नि के नि के न	कर किर देशा CG जन्म के Source के CG के प्रांतिक अ Jules in li मेरे सर्वोच मंत्रीं और एफएटीसी गंजा प्रांतिक अ प्रकार में Standa वेजी साक्ष प्रकार में Standa वेजी क्षा	RM - बास के लि ountry ा देश / Co of Wealth स्वीआई ह निवास वानम ज्ञान अ at thei ni at thei ni to roth सरकार द्वा य भैं या के s that n es incor flap तथ्य ver, may under th on- on- on- on- on- on- on- on	untry का Tax and the last of the last o	of Bir resid हेश resid श्वास matic navise. शि दिश्	ency day i day on si of on si of variation and the E ply variation and the E ply variation and the ency place of the ency reg	UA for Ts y fr में अधि fr vern fryttateo for ts sank fr in the free in fre	र Re प्रसूचि मसूचि mel meldin nelc state her the the oplic ions	कार भ मिक्स i मिक्स i मि मिक्स i मिक्स i मिक्स i मिक् i मिक i मि i मि i मिक i मि i मि i मि ो मि i मि i मि i मि i मि	पहच्च पहच्च पहच्च पहच्च पहच्च प्राप्त ः श्रीय ः श्री ः श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श्	भीतर मोतर में लाः ए पूर्ण oun: ateri सीय रि था: या: या: विकास को भीत atio	शहर/ जन्म रा ख्या संस्थात है औं हे सी त् हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी ति हि सी	City_ा स्थान प्रहीयत ग num हिंदी bo शेर / शेर शेर / शेर शेर / शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर	त / pi	thlant form and the first and	एस ि ectTa भी मह nd s ocui नेधीरि व्यव e g or res oci ने या nce othe	महत्त्व iden नियमों mxes (i uppo ment त अन्य स्था के uidel pect vern उचित Bank	के अ CBDT i जान prtin i tha i मान आधी lines of m mer c कर t op	ानुसार T)/Res कारी / g doc t may न बैंक ; issu my acc ntalAg ening ening unit for	ज अपनी erve दस्तावे आधार को विव ed b ount freen ने के अ with	स्थिति Bank ज नहीं ntary tt the पर मेरे प्र केत प्र केत श्र केत n and मधिकार in its
a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. कया आप जा जान्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. कया आप भारत के अलावा किसी आन Are you Tax resident of ANY country. d. bo you have POA or a mandate holded outside India? e. भारत के बाहर का आपका पता या वा अपन अपन अपन अपन अपन अपन अपन पता आप के पारत के अलावा किसी आन मारत के अलावा किसी आन पता अपन	क हैं, जिसमें dila ran कोई y other the respondence of the second of th	ग्रीन कार्ड देश है? an India an addr नवर है dia in मारत । rear है dia in कृपय रहा रकार केंद्र स्वादिक है रहा रकार केंद्र स्वादिक है रहा स्वादिक स्वादिक स्वादिक से रहा से	मी शामित हैं । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	स्व भे हैं? ख भ महा मिया कर के कि	हा Yes हा हा Yes हा हा हा हा हा हा हा हा हा ह	हिटार बीडीटी बीडीटी ब्रिक्टा प्रभावन स्थान ब्रिक्ट ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्र ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्रिक ब्र ब्र ब्र ब्र ब्र ब्र ब्र ब्र ब्र ब्र	भारतीय स्तावेष्य स्तावेष्	ाय रिज़्र /CRS ru / Leen ortable म के निः er crite i ज्ञात वि ow or permi तारत या पट्टारां या पट्टारां या पट्टारां या पट्टारां या पट्टारां या	कर किर देशा CG जन्म के Source कर टिठ वें बैंक अ ules in In मेरे सर्वोध स्मार्थ और एफएटीसी wisions ria stip pm change become करी साथ के कि साथ के	RM - बास के लि ountry	untry का Tax and the last of the last o	of Bir resid हेश resid श्वास matic navise. शि दिश्	ency day i day on si of on si of variation and the E ply variation and the E ply variation and the ency place of the ency reg	for Ts for Ts y fi अधि fi	र Re प्रसूचि मसूचि mel meldin nelc state her the the oplic ions	कार भ तिका भ the day the sim so of the control of the control of the control of	पहच्च पहच्च पहच्च पहच्च पहच्च प्राप्त ः श्रीय ः श्री ः श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श् श्	भीतर मोतर में लाः ए पूर्ण oun: ateri सीय रि था: या: या: विकास को भीत atio	शहर/ जन्म रा ख्या संस्था है औ है औ हि से का हि से हि हि से हि से ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह ह	City_ा स्थान प्रहीयत ग num हिंदी bo शेर / शेर शेर / शेर शेर / शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर शेर	त / pi	thlant form and the first and	एस ि ectTa भी मह nd s ocui नेधीरि व्यव e g or res oci ने या nce othe	महत्त्व iden नियमों mxes (i uppo ment त अन्य स्था के uidel pect vern उचित Bank	के अ CBDT i जान prtin i tha i मान आधी lines of m mer c कर t op	ानुसार T)/Res कारी / g doc t may न बैंक ; issu my acc ntalAg ening ening unit for	ज अपनी erve दस्तावे आधार को विव ed b ount freen ने के अ with	रिध्यति Bank ज नहीं ntary की y the (s) as nents री लेता n and मधिकार
a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप का जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य तेम एक U Tax resident of ANY country. d. क्या आप के पास पीओए या मैंडेट घारक है Do you have POA or a mandate holde outside India? e. मारत के बाहर का आपका पता या वा Is Your address or telephone number यदि उपरोक्त किसी भारन का उत्त If your answer to any of the above que 1. मैं — प्रमाणित करता हूं कि मैं घोषित की है I	क हैं, जिसमें dila ren कोई y other the i देश के ies other the i प्रेश के ies other the is on the position of the ies other the in the position of the ies other the in the position of the ies other	ग्रीन कार्ड देश है? त्रिका India कर निर्देश है? त्रिका India त्रा मारत । त्र म	मी शामित हैं । ? मी शामित हैं । ? मी शामित हैं । शें वाहर हैं हो हो हैं । शें वाहर हैं हो हैं । शें वाहर हैं हो हैं । शें वाहर हैं । शों वाहर हैं ।	स्व भ है? ख भ हों।। Pai प्रक्ष कर as per प्रक्ष कर as per प्रकार कर का का प्रकार कर का का प्रकार कर का का प्रकार कर का का का प्रकार का का का का प्रकार का का का का का प्रकार का का का का का प्रकार का का का का का का प्रकार का का का का का का का प्रकार का का प्रकार का	हा Yes हा हा Yes हा हा हा हा हा हा हा हा हा ह	बिडिटी बीडिटी बेble FA प्रभाविक अअनुपाल as p nd/or- ro to th monon i प्रदान iin 30 f any o widaw n to r ate ac ipulat a के के हैं a के हैं	भारती ATCA स्तावेष्य स्ता	ाय रिजा /CRS ru / I cer no fritable म के निः निः च roite हात वि ow or permi eriod. ग होती हैं हुं भारत	कर निर्देश CG जन्म के Source कर टिंठ जन्म के Source कर टिंठ जिल्ला के Source कर टिंठ जन्म के Source कर टिंठ जन्म के Source कर टिंठ जन्म के टिंठ जिल्ला के प्रकार के टिंठ जिल्ला के प्रकार के जिल्ला	RM - बास के लि ountry	untry का Tax and the last of the last o	of Bir resid हेश resid श्वास matic navise. शि दिश्	बंध मं ency / Go के अ or or v or ar i कर ce m reg	for Ta y में अधि vern नुसार tated vithli निकार निक निक निक नि निक निक निक निक नि निक नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि	ax Re at the factorial and the factorial and the factorial and the factorial and the factorial and the factorial and the factorial and th	कर पं Fax i Fax i Tax i	पहच्च पहच्च पहच्च पहच्च प्रितास शिव शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिव शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शि शिवास शि शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिवास शिव शि शिव शि शिव शि शि शि शि शि शि श शि श शि शि श शि श शि श श शि श श शि श शि श	मीतर मोतर में लाग् ia/Ce v पूर्ण ouni iteri सीय f स्याः सार्थ भीत atio ore pur e uni d cons arran atio	शहर/ जन्म रा रा रा रहे औ रे op- al in है औ रे op- al in है औ रे op- al in हि औ हि के कि हि कि हि के कि हि कि हि के कि ह	City_ । स्थाः प्रियत् । स्थाः प्रियत् । प्रशाः प्रियत् । प्रशाः	सीए ः सीए ः ऐसी g fonatio / या ः गैति को r ar deta the ts. को प्रव led i take gen ject	सीआर कोई क्रिक्स हुई अन्य कार्म कि कार्म का कर कर n the any any या गय matt	एस ि प्रस्ति मिन्न भी मह nd s occur नेधीरि । व्यव ne g । res - Go रने औ ने या ने या न या न या न या न या न या न या न या न	महत्त्व iden नियमों mxes (i uppo ment त अन्य स्था के uidel pect vern उचित Bank	के अ CBDI i जान tha tha u मान sof m mer c कर्र wou ion: gree	ानुसार F)/Res कारी / g doc t may दंडों के न बैंक ह issu y acc ntalAg eening eening euld be as ma	ज अपनी erve दस्तावे आधार को विव ed b ount freen ने के अ with	स्थिति Bank ज नहीं ntary tt the पर मेरे प्र केत प्र केत श्र केत n and मधिकार in its
a. बया आप मारत के अलावा किसी अन्य देश के नार्मा Are you Citizen of any country other than In (dual/multiple) (including Green Card)? b. क्या आप का जन्म देश भारत के अला Is your Country of birth is any country. c. क्या आप भारत के अलावा किसी अन्य तेम एक पायत के अलावा किसी आन तेम अलावा किसी आन तेम अलावा किसी आन तेम एक पायत के अलावा किसी आन तेम एक तेम हो की जावा तेम के तेम तेम तेम तेम तेम तेम तेम तेम तेम ते	क हैं, जिसमें dia ा कोई wy other the control of t	ग्रीन कार्ड देश है? का India कर निव कर निव का an addr नंबर है तो कृपय रकार केंद्र रकार केंद्र रकार केंद्र श्री और में पर Welca US Rep US Rep account है जी की ते जानका के ता जानका के हम बैंक्ट के प्रकार केंद्र एक्टिं एक	मी शामित हैं । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	स्व भी Pala as per la participa de la partici	हा Yes हा हा Yes हा हा हा हा हा हा हा हा हा ह	ECLV मर्थन द प्रभावि ट्राप्ट्रमावि ट्राप्ट्रमावि ट्राप्ट्रमावि ट्राप्ट्रमावि अअनुपाल as p श्रवीवा प्रप्राचन प्रप्राचन प्रप्राचन प्रप्राचन प्रप्राचन प्रप्राचन प्रप्राचन प्रप्राचन प्रप्राचन स्राचि स्राच स्राच स्राच स्राच स्राच स्राच स्राच स्राच स्राच स्राच स् स्राच स्राच स्राच स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स् स्	भारती ATCA स्तावेज त हो । अध्या अध्य अध्या अध्य अध्या अध्य	ाय रिजा /CRS ru / I cer जी साक्ष्य / I cer जी त्या र जिल्हा जिला जिल्हा जिल्हा जि जि जिल्हा जिल्हा जिल्हा जिल्हा जिल्हा जिल्हा	कर निर्मे देश/ Cc जन्म क Source कर्कि देश कि अपीट कि प्राप्त के Source कर्कि के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के कि अपीट के प्राप्त	RM - वास के लि ountry ा देश/Co of Wealth, र निवास मम ज्ञान अ at the in and tha and tha is of in ulated t wgencies or off wait wgencies re, may under th on- on- on- on- on- on- on- on- on- on	untry का Tax and the last of the last o	of Bir resid हेश resid श्वास matic navise. शि दिश्	बंध मं ency / Go के अ or or v or ar i कर ce m reg	for Ta y में अधि vern नुसार tated vithli निकार निक निक निक नि निक निक निक निक नि निक नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि नि	ax Real and a second and a sec	कर में तिया में से देवा में के देवा में	पहच्च के पहच्च किया किया किया किया किया किया किया किया	मीतर में लान्द्र र पूर्ण oun- tteri सीय रि / याः सीय रि / याः सीय दि के भीत atio pur षय व ad in	शहर/ जन्म प्राप्त एफ है औं ऐधित है है औं एक्पित है हिंदी है हि हिंदी है हिंदी है हि	City_n स्थाः प्रियत्व हिस्स्याः प्रियत्व हिस्स्याः प्रियत्व हिस्स्याः प्रियत्व हिस्स्याः हिसस्याः	सीए ः fr / pi fr/Nation ber* सीए ः g fo nation / या ः हो को प्रव deta the deta the gen ject	thlour and the annual transfer and trans	एस ि एस ि मि मह भी मह भो प्राच्या भा प	पहरू नेयमों hxxes (i uppo ment चंत अन्य स्था के uidel pect vern उचित Bank er act	के अ CBDI i जान tha tha u मान sof m mer c कर्र wou ion: gree	ानुसार F)/Res कारी / g doc t may दंडों के न बैंक ह issu y acc ntalAg eening eening euld be as ma	ज अपनी erve दस्तावे आधार को विव ed b ount freen ने के अ with	स्थिति Bank ज नहीं ntary tt the पर मेरे प्र केत प्र केत श्र केत n and मधिकार in its